



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14—अगस्त 20, 2004 (श्रावण 23, 1926)

No. 33]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14—AUGUST 20, 2004 (SRAVANA 23, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 4

PART I—SECTION IV

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय
सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2004

सं. 406, दिनांक 16 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित
अधिकारियों की नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

एस एस-31229ए अब टीए-42568 भूतपूर्व कैप्टन चरनजीत सिंह को प्रादेशिक सेना एक्ट 1948 के अन्तर्गत इन्फैन्ट्री टीए में दिनांक 19 मई 2003 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर कमीशन प्रदान किया जाता है। स्थायी सेना की 05 साल 02 महीने और 23 दिन (दिनांक 26.8.82 से 17.11.87 तक) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 26.2.98 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें 26.2.2004 से कैप्टन पद पर पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के पैरा 25ए तथा 38ए के अन्तर्गत (जैसा एस आर ओ 43, दिनांक 11 फरवरी 2003 के द्वारा संशोधित) प्रदान की जाती है।

एस एस-36655एक्स अब टीए-42530 भूतपूर्व कैप्टन राजेश नायक को प्रादेशिक सेना एक्ट 1948 के अन्तर्गत इन्फैन्ट्री टीए में दिनांक 20 जुलाई 2002 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर कमीशन प्रदान किया जाता है। स्थायी सेना की 05 साल 02 महीने और 27 दिन (दिनांक 9.3.96 से 4.6.2001 तक) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 23.4.97 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें 23.4.2003 से कैप्टन पद पर पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के पैरा 25ए तथा 38ए के अन्तर्गत (जैसा एस आर ओ 43, दिनांक 11 फरवरी 2003 के द्वारा संशोधित) प्रदान की जाती है।

लै. बनाया जाता है

जसवन्त सिंह भारद्वाज टीए (एन टी-1215) एएमसी(एनटी),
20 अक्टूबर 2002

बिष्णुदत्त भारद्वाज टीए (एन टी-1216) एएमसी(एन टी), 20 अक्टूबर
2002

एम. एल. शर्मा
अवर सचिव

सं. 407, दिनांक 20 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं :--

(नियमित सेना)
अल्प सेवा आयोग
लै. के पद पर

निम्नलिखित अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग का छः मास का समय जो कि 08 मार्च 2003 से शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 08 मार्च 2003 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पांच वर्ष के लिये विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

अभिवेक राय (एस एस-40068के) ए.एस.सी ज्येष्ठता निर्दिष्टता लै. मोहित जोशी (एस एस-40067एफ) इन्फैंट्री एवं टेनसिंग सौगलियानथुआम (एस एस-40103एफ) इन्फैंट्री ज्येष्ठता निर्दिष्टता लै. जयदीप सिंह (एस एस-40102वाई) ए. सी. जिनका नाम भारत के राजपत्र 07 फरवरी 2004 को हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

विजय सहगल
लै. कर्नल
सह सेना सचिव 8बी

सिग्नल्स महानिदेशालय

सं. 408, दिनांक 15 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी हुई तारीखों से आगामी आदेशों तक मुख्यालय दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु में उनके नाम के सामने लिखे हुए पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

श्री ब्रजेन्द्र कुमार जोशी, आचार्य के पद पर--30 अक्टूबर 2003 पूर्वाह्न से

श्री राजेश मुंगासाजी बोडाडे, सहायक आचार्य के पद पर--28 नवम्बर 2003 पूर्वाह्न से

श्री सुधीर कुमार सहायक, आचार्य के पद पर--19 नवम्बर 2003 पूर्वाह्न से

श्री रवि प्रकाश गुप्ता, प्राध्यापक के पद पर--30 अक्टूबर 2003 पूर्वाह्न से

कु. मोगना नीलकन्दन, प्राध्यापक के पद पर--11 दिसम्बर 2003 पूर्वाह्न से

श्री महीपाल सिंह चौधरी, प्राध्यापक के पद पर--30 जनवरी 2004 पूर्वाह्न से

श्रीमती निधि गुप्ता, प्राध्यापक के पद पर--12 दिसम्बर 2003 पूर्वाह्न से

श्री चन्द्रकान्त नारायणराव खैरनार, प्राध्यापक के पद पर--18 दिसम्बर 2003 पूर्वाह्न से

ये अधिकारी नियुक्ति से एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रखे जाएंगे।

रा. चतुर्वेदी
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 409, दिनांक 15 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री सुशील कुमार सचदेवा, वै.स. को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में दिनांक 04 मार्च 2004 से 30 जून 2004 तक या चयन सूची से नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई आधार पर, निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित) वेतनमान 6500--10500 के पद पर, नियुक्त करते हैं।

उपरलिखित अधिकारी की निजी सचिव के रूप में पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

क. यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

राष्ट्रपति सहर्ष, श्री एम एम सिंह, सहायक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 की धारा 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान 6500-200-10500 के पद पर दिनांक 16 मार्च 2004 से दिनांक 24 अगस्त 2004 तक या सेवा निवृत्त होने तक अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

इनकी नियुक्ति पूर्णतः काम चलाक आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर यह नियुक्ति बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

थल सेना विभाग

सं. 410, दिनांक 21 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित सेना दन्त चिकित्सा कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन आयोग में पक्का करते हैं :--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन आयोग

(स्थाईकरण)

डी एस-12079ए कैप्टन मौना भाटिया, 01.10.2002

डी एस-12081एक्स कैप्टन अरुण तनवर, 02.11.2002

डी एस-12084एल कैप्टन साई कृष्ण, 20.12.2002

डी एस-12098एल कैप्टन नेहा गुप्ता, 04.04.2003

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

दल सेना विभाग

सं. 411, दिनांक 16 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में

सूबेदार आर धीरूमंगई (जेसी-226612वाई), 06 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

सूबेदार अभय सिंह (जेसी-226571ए), 11 मई 2004/01 मई 2004 *

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (ए.आई.जी.) के पद में

सूबेदार विजय कुमार पांडे (जेसी-255301एन), 05 मई 2004/01 मई 2004 *

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

सूबेदार रामोतार यादव (जेसी-185947वाई), 13 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (लिपिक) के पद में

सूबेदार किशोर कुमार गुर्गंग (जेसी-255066ए), 05 मई 2004/01 मई 2004 *

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार सुरेश चंद (जेसी-297699पी), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार नरेंद्र प्रसाद (जेसी-297682एफ), 24 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार भार्गव बालू दशरथ (जेसी-297647वाई), 29 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार कमलेश प्रसाद सिंह (जेसी-297642ए), 14 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-297935एल), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राधाकृष्णन एन (जेसी-298100एच), 19 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार माखन सिंह (जेसी-297742एल), 02 अप्रैल 2004/08 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार पिता बाश पांडा (जेसी-298344डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2004/20 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-298369एच), 08 अप्रैल 2004/20 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार सानापाला नागेश्वर राव (जेसी-297913एम), 28 मार्च 2004/22 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार मुरलीधरन पिल्लै एस (जेसी-298492एफ), 15 अप्रैल 2004/24 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह (जेसी-297310डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार सुभाष चंद्र यादव (जेसी-297539पी), 25 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार हेडगे अरुण संभाजी (जेसी-298362वाई), 08 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार मोहम्मद अजीज पाशा (जेसी-297065वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-297398एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सेव सिंह (जेसी-297586एम), 28 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार मुन्ना प्रसाद (जेसी-297646डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जेसी-297819एच), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार भीष्मप्पा बडकर (जेसी-297717एम), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार श्रीराम सिंह यादव (जेसी-297829एम), 04 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार भूप सिंह (जेसी-297910वाई) 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार नरेश प्रसाद सिंह (जेसी-298051एल), 02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार श्याम लाल जाटव (जेसी-298282एफ), 20 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-297846एन), 01 मई 2004

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए.आई.जी.) के पद में

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-297446ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जेसी-297448एल), 01 मई 2004

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार मिथलेश कुमार निगम (जेसी-298170एफ), 23 फरवरी 2004/14 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार गणेश दास (जेसी-298174एक्स), 17 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार संत सिंह (जेसी-298166वाई), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार आर विनोदन (जेसी-298244एल), 13 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राजा राम यादव (जेसी-298164एन), 06 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार राजा मनि एस (जेसी-298169एम), 01 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार ईलुरी वेंकटा रामी रेड्डी (जेसी-298200एन),
01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार ई सीनिवामी (जेसी-298272एक्स), 01 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार रामेंद्र बसाक (जेसी-298567एन), 03 मई 2004/01
मई 2004 *

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार बिरेंद्र कुमार (जेसी-296932एल), 01 मई 2004
*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं. 412, दिनांक 15 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैंट्री

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-568452के), 01 मई 2001

नायब सूबेदार सदानंदन पीके (जेसी-568615 एम), 21 मई
2001

नायब सूबेदार मिथिलेश्वर कुमार सिंह (जेसी-568496एफ), 22
अगस्त 2001@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2001

नायब सूबेदार पाटिल बाबासाहेब शिवगोंडा (जेसी-568810के),
22 नवम्बर 2002@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2002

नायब सूबेदार बिधि चंद (जेसी-568756एफ), 01 दिसम्बर
2002#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार राम मनी (जेसी-568925 एक्स), 01 नवम्बर 2002##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार देवरे साहेब मोरोतराव (जेसी-568786वाई), 16 नवम्बर
2002###

###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार सुरेंद्रपाल (जेसी-568544डब्ल्यू), 11 नवम्बर
2002\$

\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार फकीर राम (जेसी-568545वाई), 23 अक्टूबर 2002\$\$

\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-568716एक्स), 02 सितम्बर
2002

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-568853वाई), 01 नवम्बर 2002#
#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार शेखरानंद (जेसी-568669एन), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह (जेसी-568777एक्स), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार खरात रमेश धोंडीराम (जेसी-568840एफ), 01
अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार प्रताप नाथ (जेसी-568844एक्स), 01 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार रोशनलाल वर्मा (जेसी-568896एन), 01 अक्टूबर
2002

नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-568610एच), 01 नवम्बर
2002

नायब सूबेदार हकूमत सिंह (जेसी-568671एल), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार संसार चंद (जेसी-568678पी), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-568698एच), 09 दिसम्बर 2002\$
\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार छितर पाल (जेसी-568726के), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार बरयाम सिंह (जेसी-568813एक्स), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह यादव (जेसी-568831ए), 01 नवम्बर
2002

नायब सूबेदार शम्भू प्रसाद (जेसी-568867वाई), 03 नवम्बर 2002%
%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार मधुकर शामराव भवास्कर (जेसी-568893ए),
01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार सुरज भान (जेसी-568904एफ), 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार मोरे बिठ्ठल मारुति (जेसी-568849डब्ल्यू),
24 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार तेजभान सिंह (जेसी-568812पी), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार म्हेतर नंद गोविंदा (जेसी-568850एल), 01 दिसम्बर
2002

नायब सूबेदार नछतर सिंह (जेसी-568872के), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार वाघमारे राजेंद्र तुकाराम (जेसी-568909ए),
16 दिसम्बर 2002&&

&&बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार दाल सिंह धोंडसिंह राजपूत (जेसी-568967के),
01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार साले सुभाष दत्त (जेसी-568951वाई), 01 दिसम्बर
2002

नायब सूबेदार काम्बले सुभाष लिम्बाजी (जेसी-568981डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार शिंदे रमेश नारायण (जेसी-568892एक्स), 10 जनवरी 2003&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 दिसम्बर 2002)

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह नेगी (जेसी-568928एल), 08 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-568926के), 15 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार लाल साहब (जेसी-568873एम), 17 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार दयानिधि तिवारी (जेसी-568766एल), 05 जनवरी 2003*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2003)

नायब सूबेदार राजेश कुमार सिंह (जेसी-568791के), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार नरसी राम गुर्जर (जेसी-568815एच), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार बाबा नामदेव भोंसले (जेसी-568846एच), 25 जनवरी 2003+

+(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2003)

नायब सूबेदार नारायण दास (जेसी-568878एल), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-569002वाई), 15 जुलाई 2003++

++(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2003)

नायब सूबेदार काम्बले गणपति श्रीपति (जेसी-568927एच), 10 जनवरी 2003&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2003)

नायब सूबेदार चंडीप्रसाद (जेसी-568765एच), 10 जनवरी 2003&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 03 जनवरी 2003)

नायब सूबेदार अमर नाथ (जेसी-568597पी), 18 फरवरी 2003&&&

&&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार मनोहर दत्त (जेसी-568795ए), 10 फरवरी 2003**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार भनुप्रताप सिंह (जेसी-568809पी), 13 फरवरी 2003***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार विष्णुमुद्द डोंगरे (जेसी-568851एन), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार फिशन लाल (जेसी-568854एफ), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार रास्ते शिवाजी विठोबा (जेसी-568895एल), 01 अप्रैल 2003&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार राजाराम प्रभु काम्बले (जेसी-568897डब्ल्यू), 26 मार्च 2003&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-568880एच), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-568900एल), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार विश्राम यादव (जेसी-568905के), 06 फरवरी 2003@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार बेताल सिंह (जेसी-568906एम), 25 फरवरी 2003**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार ब्रह्म दास (जेसी-568923एम), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-568910पी), 06 अप्रैल 2003***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-568930एच), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-568931एल), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार सुरजीत राम (जेसी-568877एच), 14 फरवरी 2003

नायब सूबेदार बिजेंद्र सिंह (जेसी-568899एफ), 11 मार्च 2003#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 फरवरी 2003)

नायब सूबेदार सतवंत सिंह (जेसी-568672एन), 21 फरवरी 2003

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-568934वाई), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार बर्वे बालकृष्ण हरि (जेसी-568852डब्ल्यू), 20 मार्च 2003\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)

नायब सूबेदार बिजेंद्र कुमार (जेसी-568876ए), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार देशराज यादव, (जेसी-568911एक्स), 12 मार्च 2003\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)

नायब सूबेदार आलोक कुमार विश्वास (जेसी-568912ए), 27 मार्च 2003&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार शर्मा (जेसी-568913एच), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-568914एल), 26 मार्च 2003%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)

नायब सूबेदार जचारिया करकंट, (जेसी-568917वाई), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार दिनेश कुमार सिंह (जेसी-568916डब्ल्यू), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-568949एफ), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-568918एफ), 13 मई 2003%%

%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-568929एन), 13 मई 2003&
&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)
नायब सूबेदार दुर्गपाल सिंह (जेसी-568958एच), 12 अगस्त
2003&&
&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)
नायब सूबेदार बीरेंद्र प्रताप सिंह (जेसी-568973एक्स), 10 अक्टूबर
2003&&
&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2003)
नायब सूबेदार बिजय सोनाजी रोकडे (जेसी-568674वाई), 06
अक्टूबर 2003@
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 17 मार्च 2003)

राजपूताना राईफल्स
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन लाल (2878220के अब जेसी-469422के),
11 सितम्बर 2003
हवलदार लाल सिंह (2879071एन अब जेसी-469423एम),
11 सितम्बर 2003
हवलदार रोजान सिंह (2879739एम अब जेसी-469424पी),
11 सितम्बर 2003
हवलदार नन्द सिंह (2877148एम अब जेसी-469425एक्स),
21 सितम्बर 2003
हवलदार बिजेन्द्र सिंह (2888122एक्स अब जेसी-469426ए),
01 नवम्बर 2003
हवलदार भगवान सिंह (2878672एम अब जेसी-469427एच),
01 नवम्बर 2003
हवलदार जुमा खान (2873379एल अब जेसी-469428एल),
01 नवम्बर 2003
हवलदार सुरेश सिंह तोमर (2877560ए अब जेसी-469429एन),
08 नवम्बर 2003
हवलदार बिक्रम सिंह शेखावत (2879603एच अब जेसी-
469430एच), 14 नवम्बर 2003
हवलदार जय भगवान (2873726वाई अब जेसी-469431एल),
01 दिसम्बर 2003
हवलदार अजय पाल सिंह (2875972एच अब जेसी-469432एन),
01 दिसम्बर 2003
हवलदार दशरथ सिंह (2877754एच अब जेसी-469433डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2003
हवलदार मुकेश कुमार (2877598के अब जेसी-469434वाई),
19 दिसम्बर 2003/12 दिसम्बर 2003*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)
हवलदार बाबू सिंह (2874952एच अब जेसी-469435एफ), 19
दिसम्बर 2003

हवलदार सज्जन सिंह (2876068एच अब जेसी-469436के),
26 दिसम्बर 2003
हवलदार राम चन्द्र सिंह (2873973एम अब जेसी-469437एम),
01 जनवरी 2004
हवलदार सार्वत सिंह राठी (2878223एक्स अब जेसी-469438पी),
01 जनवरी 2004
हवलदार रमेश (2875946एफ अब जेसी-469439एक्स), 01 जनवरी
2004
हवलदार गणेश सिंह (2882688पी अब जेसी-469440एम),
01 जनवरी 2004
हवलदार सवाई सिंह (2879391एच अब जेसी-469441पी),
25 जनवरी 2004
हवलदार भंवर सिंह (2876060डब्ल्यू अब जेसी-469442एक्स),
01 फरवरी 2004
हवलदार अर्जुन राम (2880467के अब जेसी-469443ए),
01 फरवरी 2004
हवलदार लून सिंह (2877839वाई अब जेसी-469444एच),
01 फरवरी 2004
हवलदार ओम प्रेमी (2876467एम अब जेसी-469445एल),
01 मार्च 2004
हवलदार श्रीपाल सिंह (2880012एन अब जेसी-469446एन), 01
मार्च 2004

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार कुलवन्त सिंह (4462731एच अब जेसी-509080एम), 27
फरवरी 2004×
×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)
हवलदार अमरजीत सिंह (4459428डब्ल्यू अब जेसी-509081पी),
27 फरवरी 2004×
×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाएगी)
हवलदार जगजीत सिंह (4463698एच अब जेसी-509084एच),
01 अक्टूबर 2003
हवलदार इन्द्रजीत सिंह (4465060पी अब जेसी-509085एल), 01
अक्टूबर 2003
हवलदार हरदेव सिंह (4462116एल अब जेसी-509087डब्ल्यू), 20
फरवरी 2004×
×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार अमरजीत सिंह (4466173के अब जेसी-509088वाई), 28 फरवरी 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार हरदीप सिंह (4466557वाई अब जेसी-509089एफ), 28 फरवरी 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार बलबिन्दर सिंह (4465173एक्स अब जेसी-509091वाई), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) जी.डी. के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) घनश्याम सिंह (4464481एल अब जेसी-509082एक्स), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार (क्लर्क) भागीरथी नायक (4464486के अब जेसी-509083ए), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार (क्लर्क) कपतान सिंह (4468969वाई अब जेसी-509086एन), 10 नवम्बर 2003

हवलदार (क्लर्क) बजीर सिंह (4464983एन अब जेसी-509090डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र किशोर सिंह (4465029एच अब जेसी-509092एफ), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार पृथी सिंह (4465865एम अब जेसी-509112के), 18 अप्रैल 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार निर्मल सिंह (4467466एफ अब जेसी-509113एम), 05 मई 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार गुरमीत सिंह (4467690एन अब जेसी-509114पी), 12 अप्रैल 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार बलजीत सिंह (4463274एम अब जेसी-509115एक्स), 01 जनवरी 2004

हवलदार जरमेल सिंह (4464004के अब जेसी-509116ए), 16 अप्रैल 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुखवन्त सिंह (4466753वाई अब जेसी-509117एच), 01 अप्रैल 2004*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार त्रलीचन सिंह (4464477एच अब जेसी-509118एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार जगतार सिंह (4466727एक्स अब जेसी-509119एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार रंजीत सिंह (4464723एच अब जेसी-509120एच), 04 अप्रैल 2004

हवलदार रामसेर सिंह (4465018डब्ल्यू अब जेसी-509121एल), 09 अप्रैल 2004

हवलदार चरप्रवीत सिंह (4460975एक्स अब जेसी-509122एन), 16 अप्रैल 2004

हवलदार रक्षपाल सिंह (4464346एक्स अब जेसी-509123डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सधीनधरन पिल्ले बी (4464499एफ अब जेसी-509111एफ), 01 अक्टूबर 2003

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार सुखदेव सिंह (9084983डब्ल्यू अब जेसी-593161पी), 15 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पीरा राम (9085135के अब जेसी-593162एक्स), 18 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गिरदारी लाल (9085440डब्ल्यू अब जेसी-593163ए), 15 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार हरनाम सिंह (9085228वाई अब जेसी-593164एच), 15 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद अजमल खान (9085689एच अब जेसी-593165एल), 24 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सोम नाथ (9085900एम अब जेसी-593166डब्ल्यू), 18 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जफर इकबाल (9086936एक्स अब जेसी-593167डब्ल्यू),
17 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (9084932एच अब जेसी-593168वाई),
23 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लक्षमण दास, वीरचक्र (9086074के अब जेसी-
593169एफ), 15 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (9084175वाई अब जेसी-593152एन),
28 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (9087464वाई अब जेसी-593153डब्ल्यू),
01 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रेम नाथ (9083973ए अब जेसी-593155एफ),
27 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मौहम्मद इशाक (9084065के अब जेसी-593156के),
14 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (9086579ए अब जेसी-593157एम)
14 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रमेश लाल (9084104एक्स अब जेसी-593158पी),
16 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार छिलो राम (9084247एक्स अब जेसी-593159एक्स),
25 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (9085092ए अब जेसी-593160एम),
15 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रीतम सिंह (9085160एच अब जेसी-593170डब्ल्यू),
31 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अग्नेज सिंह (9085205एक्स अब जेसी-593171वाई),
20 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शैल सिंह (9086121डब्ल्यू अब जेसी-593172एफ),
09 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार यश पाल (9087473ए अब जेसी-593173के),
08 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सोहन लाल (9088265एक्स अब जेसी-593174एम),
08 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जगदीश राज (9088591ए अब जेसी-593175पी),
08 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (9089140एम अब जेसी-
593176एक्स), 08 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रेम नाथ (9085666एफ अब जेसी-593177ए), 12 अप्रैल
2004

(नायब सूबेदार रैंक में 05 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दर्शन लाल (9084957एफ अब जेसी-
593188एम), 12 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रतन सिंह (9086457डब्ल्यू अब जेसी-
593189पी), 10 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रतन लाल (9084656एल अब जेसी-
593190के), 26 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पृथ्वी राज (9084061एन अब जेसी-
593191एम), 06 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 28 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रघबीर सिंह (9086932एफ अब जेसी-
593192पी), 06 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 11 फरवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (9086531एम अब जेसी-
593193एक्स), 08 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लाल चन्द (9086234वाई अब जेसी-
593194ए), 08 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार स्वर्ण सिंह (9084349एन अब जेसी-593180ए), 26 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 05 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद इकबाल खान (9087802एल अब जेसी-593181एक्स), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सागर सिंह (9086286पी अब जेसी-593182एल), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रशोतम कुमार (9085351एक्स अब जेसी-593183एन), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जसवंत सिंह (9085799एक्स अब जेसी-593184डब्ल्यू), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार धारा लाल (9086829डब्ल्यू अब जेसी-593185वाई), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुलाम हुसैन (9085468डब्ल्यू अब जेसी-593186एफ), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रोमेश कुमार (9086192एक्स अब जेसी-593187के), 09 मार्च 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2003 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद फारुक (9086057के अब जेसी-593147एच), 08 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 05 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लाल दीन (9086560एफ अब जेसी-593148एल), 25 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार महमूद अहमद (9086100ए अब जेसी-593149एन), 16 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र कुमार (9087349वाई अब जेसी-593150एच), 11 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशाक हुसैन रैना (9086624एफ अब जेसी-593151एल), 11 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार रैंक में 16 जनवरी 2004 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक की पदोन्नति के लिये

हवलदार लिपिक सत्याधीर सिंह (9088160एन अब जेसी-693154वाई), 01 मार्च 2004

मद्रास रेजीमेन्ट

हवलदार ए चेल्लापान्डी (2591784एम अब जेसी-439371एम), 01 नवम्बर 2003

हवलदार जी पेरूमाल (2585878एन अब जेसी-439372पी), 01 नवम्बर 2003

हवलदार बिजु डी (2597123एच अब जेसी-439366एफ), 30 नवम्बर 2003

हवलदार नटराजन एम (2581582एक्स अब जेसी-439382वाई), 02 फरवरी 2004

हवलदार हरिदासन के (2582703ए अब जेसी-439378डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार के पेरियापान्डी (2584126एक्स अब जेसी-439377एन), 01 मार्च 2004

हवलदार पन्डिरा पोइना पोल राजु (2584654एफ अब जेसी-439380एन), 01 अप्रैल 2004

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार तेज बहादुर गुरुंग (4353315एच अब जेसी-548916पी), 09 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार नानी सिन्हा (4352657के अब जेसी-548927एफ), 01 नवम्बर 2003

हवलदार पोवल चन्द्रा बोराह (4353369के अब जेसी-548928के), 01 जनवरी 2004

हवलदार रत्नेश्वर दैमारी (4353826एम अब जेसी-548929एम), 15 जनवरी 2004

हवलदार बिपुल चन्द्रा बोराह (4355814डब्ल्यू अब जेसी-548931के), 01 फरवरी 2004

हवलदार कृष्णा लामा (4358541के अब जेसी-548940एल), 13 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार धानू राम बोरा (4355653वाई अब जेसी-548941एन), 13 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार होतोवी शिखु (4355181एन अब जेसी-548942डब्ल्यू), 13 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार कृष्णा आरीयल (4355889एन अब जेसी-548943वाई), 08 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार जी बहादुर गुरुंग (4356205वाई अब जेसी-548944एफ), 08 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार हरसिंह बासुमातारी (4353703ए अब जेसी-548936एच),
01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार कमलेश्वर वारी (4353006ए अब जेसी-548937एल), 01
अक्तूबर 2003

हवलदार हेन्तीनलियन वार्डफे (4355064ए अब जेसी-548938एन),
01 अक्तूबर 2003

हवलदार एच रेम्मोया (4350897डब्ल्यू अब जेसी-548932एन),
01 फरवरी 2004

दि राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक सोने लाल पाण्डेय (सं. 2979806एफ अब जेसी-
479354पी), 01 फरवरी 2004, ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से वेतन तथा
भत्ते पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार लिपिक प्रेम सिंह (सं. 2984007पी अब जेसी-
479355एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार लिपिक राम नारायण सिंह (सं. 2983664एम अब जेसी-
479356ए), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक राजेन्द्र कुमार (सं. 2983841एफ अब जेसी-
479357एच), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार बिनेन्द्र पाल सिंह (सं. 2984259एफ अब जेसी-479358एल),
27 जनवरी 2004, ज्येष्ठता 01 जून 2003 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव
डाले बिना

हवलदार चन्दर सिंह (सं. 2982742एम अब जेसी-479359एन),
01 अगस्त 2003

हवलदार भगवान सिंह (सं. 2982676पी अब जेसी-
479360एच), 02 फरवरी 2004, ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से वेतन
तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार बलबिन्दर सिंह (सं. 2983647एम अब जेसी-
479361एल), 20 अक्तूबर 2003, ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से वेतन
तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2985787एक्स अब जेसी-
479362एन), 01 नवम्बर 2003

हवलदार रघुराज सिंह (सं. 2985717वाई अब जेसी-
479363डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2003, ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से वेतन
तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार लाल चन्द गूजर (सं. 2984422डब्ल्यू अब जेसी-
479364वाई), 24 जनवरी 2004, ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से वेतन
तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 2981507एफ अब जेसी-
479365एफ), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार शिव चरण (सं. 2983073एल अब जेसी-
479366के), 01 जनवरी 2004

हवलदार अमर सिंह (सं. 2978236के अब जेसी-
479367एम), 29 जनवरी 2004

हवलदार राजेश्वर सिंह (सं. 2977782के अब जेसी-
479368पी), 30 जनवरी 2004

हवलदार असोक कुमार (सं. 2982210एम अब जेसी-
479369एक्स), 30 जनवरी 2004

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 2982355एक्स अब जेसी-
479370एम), 30 जनवरी 2004

हवलदार हरी शंकर (सं. 2980945एक्स अब जेसी-
479371पी), 01 फरवरी 2004

हवलदार मोहम्मद शकील नकवी (सं. 2983588एल अब जेसी-
479372एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 2980746के अब जेसी-
479373ए), 01 फरवरी 2004

हवलदार असीम कुमार पन्डा (सं. 2983138एन अब जेसी-
479374एच), 01 फरवरी 2004

हवलदार गुमान सिंह (सं. 2980536के अब जेसी-
479375एल), 01 फरवरी 2004

हवलदार हरकेश सिंह (सं. 2982950एफ अब जेसी-
479376एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार अरुन कुमार सिंह (सं. 2982838पी अब जेसी-
479377डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

हवलदार गोकुल राम (सं. 2986469ए अब जेसी-
479378वाई), 01 मार्च 2004

हवलदार धीरेन्द्र नाथ राय (सं. 2982343एच अब जेसी-
479379एफ), 01 अप्रैल 2004

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बजरंग सिंह (सं. 2671297ए अब जेसी-449587एफ),
01 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2002)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 2674446एन अब जेसी-449588के),
11 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2003)

हवलदार अमीन चन्द (सं. 2673382एफ अब जेसी-449589एम),
08 नवम्बर 2003

हवलदार जगदीश राज (सं. 2670946एन अब जेसी-449590एफ),
21 नवम्बर 2003

हवलदार रमेश कुमार (सं. 2672704के अब जेसी-449591के),
16 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 नवम्बर 2003)

हवलदार सुरिन्दर सिंह, एस एम (सं. 2671208डब्ल्यू अब
जेसी-449592एन), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार लियाकत अली (सं. 2675882एक्स अब जेसी-449593पी),
10 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 2673836के अब जेसी-449594एक्स),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार बी रमा (सं. 2673759ए अब जेसी-449595ए), 01
दिसम्बर 2003

हवलदार सूरज प्रकारा वर्मा (सं. 2680764एन अब जेसी-
449596एच), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2676249के अब जेसी-449597एल),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार जीवन खान (सं. 2675467डब्ल्यू अब जेसी-449598एन),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार कर्नर सिंह (सं. 2674392एक्स अब जेसी-449599डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार हीम राज (सं. 2673986ए अब जेसी-449600ए), 01
दिसम्बर 2003

हवलदार धर्मवीर (सं. 2686082वाई अब जेसी-449601एच), 01
दिसम्बर 2003

हवलदार खीमा कठगत (सं. 2676831डब्ल्यू अब
जेसी-449602एल), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 2672282के अब जेसी-449603एन),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार श्रीपाल सिंह सेंगर (सं. 2674214पी अब
जेसी-449604डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार मदन लाल पठानिया (सं. 2674073एल अब
जेसी-449605वाई), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार जगदीश चन्द शर्मा (सं. 2674113एफ अब
जेसी-449606एफ), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार हाकम चन्द (सं. 2672962के अब जेसी-449607के),
06 दिसम्बर 2003

हवलदार शिम्भू दयाल रावत (सं. 2679729वाई अब
जेसी-449608एम), 25 दिसम्बर 2003

हवलदार लीला राम खटाना (सं. 2679894के अब
जेसी-449609पी), 25 दिसम्बर 2003

हवलदार अमर सिंह (सं. 2675940डब्ल्यू अब जेसी-449610के),
30 दिसम्बर 2003

हवलदार राम बाबू सिंह (सं. 2676745एल अब जेसी-449611एम),
30 दिसम्बर 2003

हवलदार नरेन्द्र सिंह कुशावाह (सं. 2678825एफ अब
जेसी-449612पी), 30 दिसम्बर 2003

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2673247एन अब जेसी-449613एक्स),
01 जनवरी 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2672711ए अब जेसी-449614ए), 14
फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004)

हवलदार राय सिंह (सं. 2673435पी अब जेसी-449615एच), 01
जनवरी 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक दीपचन्द (सं. 2674420वाई अब
जेसी-449616एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार लिपिक सतेन्द्र सिंह नेगी (सं. 2675147एफ अब
जेसी-449617एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हमीद खॉं (सं. 2672431एम अब जेसी-449554डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2002)

हवलदार मीर खान (सं. 2672732डब्ल्यू अब जेसी-449555वाई),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार ध्यान सिंह (सं. 2674527एन अब जेसी-449556एफ),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार दीन दयाल शर्मा (सं. 2673600पी अब
जेसी-449557के), 29 अक्टूबर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार बजीर सिंह (सं. 2679679वाई अब जेसी-449558एम),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार हरश कुमार (सं. 2671203एक्स अब जेसी-449559पी),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार राम निवास (सं. 2676400के अब जेसी-449560के),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2684177ए अब जेसी-449561एम),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार सूरत सिंह (सं. 2673027के अब जेसी-449562पी), 01
अक्टूबर 2003

हवलदार शेष मणि (सं. 2683853एक्स अब जेसी-449563एक्स),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार सावर मल (सं. 2673759डब्ल्यू अब जेसी-449564ए),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार कुशल सिंह (सं. 2676256ए अब जेसी-449565एच),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार ओडेडरा देवा राजा (सं. 2681396डब्ल्यू अब
जेसी-449566एल), 23 अक्टूबर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार लाला राम मीणा (सं. 2679180डब्ल्यू अब
जेसी-449567एन), 02 अक्टूबर 2003

हवलदार मंगी लाल मीना (सं. 2679869एल अब
जेसी-449568डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2003

हवलदार पंचू सिंह मीना (सं. 2680437एच अब जेसी-
449569वाई), 02 अक्टूबर 2003

हवलदार कान सिंह (सं. 2675272एल अब जेसी-449570एन), 21
अक्टूबर 2003

हवलदार राम प्रकाश बघेल (सं. 2673308ए अब
जेसी-449571डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

हवलदार बलवान सिंह (सं. 2672119के अब जेसी-449572वाई),
01 नवम्बर 2003

हवलदार भीम सिंह (सं. 2671548वाई अब जेसी-449573एफ), 01
नवम्बर 2003

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 2680977एफ अब जेसी-449574के),
01 नवम्बर 2003

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 8031648पी अब जेसी-449575एम), 01
नवम्बर 2003

हवलदार युनूस अली (सं. 2672971एल अब जेसी-449576पी),
01 नवम्बर 2003

हवलदार शिव लाल (सं. 2676942एन अब जेसी-449577एक्स),
01 नवम्बर 2003

हवलदार रन धीर सिंह (सं. 2673463एफ अब जेसी-449578ए),
28 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003)

हवलदार हवा सिंह (सं. 2673578पी अब जेसी-449579एच),
01 नवम्बर 2003

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2672507एफ अब जेसी-449580एक्स),
08 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003)

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 2678477एन अब जेसी-449581ए),
01 नवम्बर 2003

हवलदार देव राज (सं. 2674141एन अब जेसी-449582एच),
01 नवम्बर 2003

हवलदार सिरताज अहमद (सं. 2674816एच अब
जेसी-449583एल), 04 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक सूबे सिंह (सं. 2673968एक्स अब
जेसी-449584एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार/लिपिक देवेन्द्रा सिंह भदौरिया (सं. 2674217एच अब
जेसी-449585डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

मराठा साईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार माने दादाराव माणीक (सं. 2782539एम अब
जेसी-459274डब्ल्यू), 18 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार लोहार गोविंद बापु (सं. 2782662एल अब
जेसी-459275वाई), 17 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3983591एफ अब जेसी-459276एफ),
17 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार गवली परशराम कौंडीबा (सं. 2774170एक्स अब
जेसी-459277के), 10 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कुमार पाटील भरमु सुबाराव (सं. 2778962पी अब
जेसी-459279पी), 01 मार्च 2004

हवलदार शशी कुमार के एम (सं. 2783491डब्ल्यू अब
जेसी-459280के), 01 मार्च 2004

हवलदार मातुकडे सुरेश खण्डु (सं. 2783177एच अब
जेसी-459281एम), 01 मार्च 2004

हवलदार पिसे विजयकुमार गजानन (सं. 2783374एल अब
जेसी-459282पी), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक त्रिभुवन सिंह (सं. 2780917एफ अब जेसी-459278एम), 01 मार्च 2004

दिवाकर
अवर सचिव

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3982306एल अब जेसी-519817के), 25 जनवरी 2004

हवलदार चेत राम (सं. 3980096एक्स अब जेसी-519818एम), 01 फरवरी 2004

हवलदार बलराम सिंह गुलेरिया (सं. 3981666पी अब जेसी-519819पी), 01 फरवरी 2004

हवलदार जित राम (सं. 3981967वाई अब जेसी-519820के), 01 फरवरी 2004

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3981261के अब जेसी-519821एम), 06 फरवरी 2004

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3984618ए अब जेसी-519822पी), 21 फरवरी 2004

हवलदार शक्ति सिंह (सं. 3980463वाई अब जेसी-519823एक्स), 26 फरवरी 2004

हवलदार राज कुमार शर्मा (सं. 3988139डब्ल्यू अब जेसी-519824ए), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक प्रकाश चन्द शर्मा (सं. 3983499एच अब जेसी-519815वाई), 14 जनवरी 2004

हवलदार लिपिक दर्शन सिंह (सं. 3979885एक्स अब जेसी-519816एफ), 01 मार्च 2004

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जी.डी./लिपिक) के रैंक में

हवलदार राम अशीष मिश्रा (सं. 4258612एल अब जेसी-559240एक्स), 10 जनवरी 2004/01 जुलाई 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार इश्वर नायक (सं. 4260733एल अब जेसी-559241पी), 17 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कुंज बिहारी नायक (सं. 4261098एक्स अब जेसी-559243एल), 03 मार्च 2004/08 अक्टूबर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 08 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सिप्रियन तिर्की (सं. 4261267एन अब जेसी-559244एन), 04 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)

हवलदार भिखारी सिंह (सं. 4258601वाई अब जेसी-559245डब्ल्यू), 25 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कुमुद किसन (सं. 4264935के अब जेसी-559246वाई), 20 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4259715डब्ल्यू अब जेसी-559247एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार अर्जुन प्रसाद यादव (सं. 4259677एल अब जेसी-559248के), 07 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार भोई (सं. 4264961एल अब जेसी-559249एल), 16 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार झिमिलाल राय (सं. 4263029ए अब जेसी-559250एफ), 23 फरवरी 2004/22 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 22 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार महेन्द्र कुमार (सं. 4259442वाई अब जेसी-559251के), 30 जनवरी 2004

हवलदार हरेन्द्र चौधरी (सं. 4259900के अब जेसी-559252एम), 29 फरवरी 2004/27 फरवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार दामु पुर्ती (सं. 4264560डब्ल्यू अब जेसी-559253पी), 18 फरवरी 2004/01 सितम्बर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार हरीश चन्द्र सिंह (सं. 4263239ए अब जेसी-559254एक्स), 23 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार कुंज बिहारी किसन (सं. 4261525एच अब जेसी-559255ए), 14 फरवरी 2004/15 नवम्बर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार शिव शंकर यादव (सं. 4262287एन अब जेसी-559256एच), 15 फरवरी 2004/07 दिसम्बर 2003 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार रामेश्वर प्रसाद (सं. 4257824के अब जेसी-559257एल), 15 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रताप चन्द्र प्रधान (सं. 4261311एम अब जेसी-559258एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार अंग्रेज बारीक (सं. 4264962एन अब जेसी-559259डब्ल्यू), 22 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार सनिका मुंडा (सं. 4263555वाई अब जेसी-559260एल), 23 फरवरी 2004/07 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक गंगाधर मोहंती (सं. 4264154डब्ल्यू अब जेसी-559261एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार चक्राधर मेहता (सं. 4261655एल अब जेसी-559262डब्ल्यू), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

गढ़वाल राईफल्स
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-529035एफ), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-529079वाई), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-529098के), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह, सेना मेडल (जेसी-529069पी), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-529114डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार भरत लाल (जेसी-529042एक्स), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार गबर सिंह (जेसी-529130एन), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार ब्रह्मा नन्द (जेसी-529092एच), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार भीम सिंह, सेना मेडल (जेसी-529165के), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-529166एम), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-529131एन), 13 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार पद्म सिंह (जेसी-528962एच), 01 जून 2003

नायब सूबेदार ताजबर सिंह (जेसी-528885वाई), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-528921वाई), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार प्रमोद प्रसाद (जेसी-528968के), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार यसपाल सिंह (जेसी-529104एम), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-529167पी), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-528904वाई), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-528924एम), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार दशरथ सिंह (जेसी-528945एच), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-528949वाई), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार रमेश चन्द सिंह (जेसी-529012ए), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-529006एम), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-529143एल), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार गोवर्धन प्रसाद (जेसी-529168एक्स), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार राजबर सिंह (जेसी-529171एक्स), 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-529144एन), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-529206एच), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद सुन्दरियाल (जेसी-529146वाई), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-529036के), 14 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-528874एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-529054एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार आनन्द सिंह (जेसी-529036एक्स), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार दरम्यान सिंह (जेसी-529089एच), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार गीता राम (जेसी-529093एल), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार गोवर्धन प्रसाद (जेसी-529135एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार नन्द किशोर (जेसी-529231एफ), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार मनबर सिंह (जेसी-529235एक्स), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार जमन सिंह (जेसी-529253ए), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-529004एफ), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार राज किशोर सिंह (जेसी-529005के), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-529094एन), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529096वाई), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार बृज मोहन सिंह (जेसी-529110ए), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार दिगम्बर सिंह (जेसी-529145डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार चंडी प्रसाद (जेसी-529211एन), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार सोहन सिंह, सेना मेडल (जेसी-529116एफ), 24 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-528958एच), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-529102एफ), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529127एन), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह (जेसी-529128डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-529141ए), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-528960एक्स), 11 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार दलावीर सिंह (जेसी-529061एच), 14 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार त्रिज मोहन (सं. 4062576वाई अब जेसी-529491एन), 07 दिसम्बर 2003xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)
 हवलदार सुरत सिंह (सं. 4062700पी अब जेसी-529492पी), 07 दिसम्बर 2003xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)
 हवलदार दलावीर सिंह (सं. 4063025ए अब जेसी-529493एक्स), 08 जनवरी 2004xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)
 हवलदार प्रीतम सिंह रावठ (सं. 4062806एफ अब जेसी-529494ए), 07 दिसम्बर 2003xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार सतेंद्र सिंह रावठ (सं. 4060838एल अब जेसी-529495एच), 07 जनवरी 2004xx

xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार नारायण सिंह पंचार (सं. 4061511वाई अब जेसी-529496एल), 25 सितम्बर 2003
 हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4062697ए अब जेसी-529497एन), 07 जनवरी 2004xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार कल्याण सिंह (सं. 4059432एल अब जेसी-529498डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003
 हवलदार कमला नन्द (सं. 4063668एक्स अब जेसी-529499वाई), 14 जनवरी 2004xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार रमेश चन्द्रा (सं. 4063300पी अब जेसी-529500एच), 12 अक्टूबर 2003
 हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4067040एन अब जेसी-529501एल), 01 नवम्बर 2003
 हवलदार भारत सिंह चौहान (सं. 2884269डब्ल्यू अब जेसी-529502एन), 03 दिसम्बर 2003xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार सतपाल सिंह (सं. 4061629ए अब जेसी-529503डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003
 हवलदार महावीर सिंह (सं. 4061325एच अब जेसी-529504वाई), 07 जनवरी 2004xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार दिनेश प्रसाद (सं. 4061000पी अब जेसी-529505एफ), 24 नवम्बर 2003
 हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4061940ए अब जेसी-529506के), 07 जनवरी 2004xx
 xx(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
 हवलदार शत्रुघ्न सिंह (सं. 4061297एफ अब जेसी-529507एन), 01 दिसम्बर 2003
 हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4063008ए अब जेसी-529508पी), 09 दिसम्बर 2003
 हवलदार रतन सिंह (सं. 4064194एन अब जेसी-529509एक्स), 01 जनवरी 2004

हवलदार यतेन्द्र सिंह (सं. 4062180पी अब जेसी-529510एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4061906ए अब जेसी-529511पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार चन्द्रा सिंह सेना मेडल (सं. 4064933पी अब जेसी-529512एक्स), 01 जनवरी 2004

हवलदार राम सिंह (सं. 4066354एफ अब जेसी-529513ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार सुगरिब चन्द (सं. 4061200एल अब जेसी-529528एच), 27 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र मोहन (सं. 4063910एफ अब जेसी-529529एल), 01 जनवरी 2004

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4061754के अब जेसी-529530ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4063329एक्स अब जेसी-529531एच), 01 जनवरी 2004

हवलदार मोहन सिंह रावत (सं. 4066132एम अब जेसी-529532एल), 01 जनवरी 2004

हवलदार ब्रिज मोहन सिंह (सं. 4067918एल अब जेसी-529533एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4061382के अब जेसी-529534डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4062742एफ अब जेसी-529535वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 4063070एम अब जेसी-529536एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4061046एक्स अब जेसी-529537के), 01 जनवरी 2004

हवलदार प्रताप सिंह रावत (सं. 4065300एन अब जेसी-529538एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार दिगम्बर सिंह (सं. 4062024एल अब जेसी-529539पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार केवल सिंह (सं. 4061525वाई अब जेसी-529540के), 01 जनवरी 2004

हवलदार छोटा लाल (सं. 4063204वाई अब जेसी-529541एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4067385एन अब जेसी-529556पी), 27 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार कर्ण सिंह (सं. 4062389ए अब जेसी-529557एक्स), 16 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार भोपाल सिंह (सं. 4062499पी अब जेसी-529558ए), 16 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार गणेश चन्द्र (सं. 4062834एन अब जेसी-529559एच), 16 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार खुशी राम (सं. 4064434ए अब जेसी-529560एक्स), 18 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार पान सिंह (सं. 4061460डब्ल्यू अब जेसी-529561ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4063140ए अब जेसी-529562एच), 24 जनवरी 2004

हवलदार तजेन्द्र सिंह (सं. 4063885एन अब जेसी-529563एल), 24 जनवरी 2004

हवलदार मस्तान सिंह (सं. 4065547पी अब जेसी-529564एन), 16 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरेशा नन्द (सं. 4064927एफ अब जेसी-529565डब्ल्यू), 16 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार जोत सिंह पँवार (सं. 4065200एच अब जेसी-529566वाई), 18 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 4066601के अब जेसी-529567एफ), 01 फरवरी 2004

हवलदार दिनेश चन्द्र (सं. 4063899एन अब जेसी-529568के), 01 फरवरी 2004

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4061669एफ अब जेसी-529569एम),
05 फरवरी 2004

हवलदार चन्द्र सिंह (सं. 4063928एक्स अब जेसी-529570एफ),
08 फरवरी 2004

हवलदार दरबान सिंह (सं. 4062001के अब जेसी-529571के), 01
मार्च 2004

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4061354एक्स अब जेसी-529572एम),
08 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगदम्बा प्रसाद (सं. 4062438एक्स अब जेसी-529573पी),
01 मार्च 2004

हवलदार भगवान सिंह (सं. 4061154एफ अब जेसी-529574एक्स),
08 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4061345डब्ल्यू अब जेसी-529575ए),
01 मार्च 2004

हवलदार बिमल सिंह (सं. 4062214एक्स अब जेसी-529576एच),
01 मार्च 2004

राजपूताना राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पृथ्वी सिंह जाखड़ (2879112एम अब जेसी-
469447डब्ल्यू), 11 सितम्बर 2003

हवलदार जगदीश प्रसाद (2878208एच अब जेसी-469448आई),
01 नवम्बर 2003

हवलदार शंकर सिंह खंगरोट (2877294एम अब जेसी-
469449एफ), 26 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायगी)

हवलदार आनन्द सिंह (2876869के अब जेसी-469450डब्ल्यू),
28 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायगी)

हवलदार सोहन सिंह (2879414आई अब जेसी-469451आई),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार रामवीर (2884142एन अब जेसी-469452एफ),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार गिरधारी लाल (2877711एन अब जेसी-469453के),
12 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायगी)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 2877855डब्ल्यू अब जेसी-469454एम),
21 जनवरी 2004

हवलदार शक्ति प्रकाश सिंह भदौरिया (सं. 2877656एच अब
जेसी-469455पी), 21 जनवरी 2004

हवलदार घन श्याम सिंह शेखावत (सं. 2877886डब्ल्यू अब
जेसी-469456एक्स), 21 जनवरी 2004

हवलदार गोपाल सिंह शेखावत (सं. 2873968एफ अब
जेसी-469457ए), 01 फरवरी 2004

हवलदार राम निवास (सं. 2878921ए अब जेसी-469458एच), 01
फरवरी 2004

हवलदार ऋषि पाल (सं. 2877369आई अब जेसी-469459एल),
01 मार्च 2004

हवलदार भीम सिंह (सं. 2876103ए अब जेसी-469460ए),
01 मार्च 2004

हवलदार सत्यवीर सिंह यादव (सं. 2879376एन अब
जेसी-469461एच), 21 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायगी)

हवलदार हजारी सिंह (सं. 2876341एम अब जेसी-469462एल),
01 मार्च 2004

हवलदार सूबेदार सिंह चौहान (सं. 2877960एम अब
जेसी-469463एन), 01 मार्च 2004

हवलदार रणजीत सिंह जाट (सं. 2876678पी अब
जेसी-469464डब्ल्यू), 08 मार्च 2004

हवलदार प्रहलाद सिंह (सं. 2876250एच अब जेसी-469465आई),
28 मार्च 2004

हवलदार लक्ष्मण सिंह राठौर (सं. 2879624आई अब
जेसी-469466एफ), 01 अप्रैल 2004

हवलदार करण सिंह (सं. 2878778आई अब जेसी-469467के),
01 अप्रैल 2004

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

रैंक नाम आर्मी/जेसी नं. पदोन्नति की तिथि

नायब सूबेदार देव बहादुर थापा (जेसी-607338एल), 16 नवम्बर
2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-607339एन), 16 नवम्बर
2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार शेर बहादुर गुरूंग (जेसी-607382पी), 19 नवम्बर
2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार शमन सिंह राणा (जेसी-607340एच), 7 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

नायब सूबेदार जमन सिंह थापा (जेसी-607352एक्स), 25 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार गंगा बहादुर थापा (जेसी-607373एन), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार लिल बहादुर थापा (जेसी-607403ए), 25 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार जुन बहादुर मगर (जेसी-607374डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार दौलत राम थापा (जेसी-607380के), 25 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार टीका राम थापा (जेसी-5607400एम), 20 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार हम बहादुर मगर (जेसी-607365पी), 04 मार्च 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सन्ता कुमार थापा (जेसी-607286ए), 01 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर गुरूंग (जेसी-607370ए), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार खुम बहादुर गुरूंग (जेसी-607381एम), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार गुमान सिंह थापा (जेसी-607390एन), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार किसना बहादुर थापा (जेसी-607407डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार तारा सिंह तमंग (जेसी-607411वाई), 29 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह थापा (जेसी-607408वाई), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार प्रताप चन्द्र थापा (जेसी-607143ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार पृथी बहादुर थापा (जेसी-607108एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार रूप सिंह गुरूंग (जेसी-607191ए), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा (जेसी-607139एक्स), 20 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार पूर्ण बहादुर गुरूंग (जेसी-607412एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार खुम बहादुर थापा (जेसी-607393एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क जसबीर सिंह सन्धु (जेसी-607237एक्स), 01-फरवरी 2004

नायब सूबेदार टीमी मैथ्सू (जेसी-607225एच), 01 अप्रैल 2004
×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

9 जी आर
सूबेदार के रैंक में

रैंक नाम आर्मी/जेसी नं. पदोन्नति की तिथि

नायब सूबेदार/क्लर्क सुनील कुमार (जेसी-629410डब्ल्यू), 22 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार टक बहादुर शाही (जेसी-629513पी), 08 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार मीन बहादुर क्षेत्री (जेसी-629470एल), 16 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार यम बहादुर खत्री (जेसी-629469डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार सोबित बहादुर खडका (जेसी-629468एन), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार लक्ष्मण क्षेत्री (जेसी-629460एफ), 24 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

4 जी आर
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार याम बहादुर थापा (सं 5345744डब्ल्यू अब जेसी-612532के), 01 नवम्बर 2003

हवलदार डमर बहादुर थापा (सं 5346244ए अब जेसी-612533एम), 27 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार पदम बहादुर पुन (सं 5345501ए अब जेसी-612534पी), 11 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं 5344435डब्ल्यू अब जेसी-612535एक्स), 15 जनवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार शंकर थापा (सं 5345756ए अब जेसी-612536ए), 11 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार कृपा राम गुरूंग (सं 5345510एफ अब जेसी-612537एच), 11 फरवरी 2004

- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार दिल बहादुर राना (सं 5344944पी अब जेसी-612538एल),
17 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार देव बहादुर गुरूंग (सं 5344996एल अब जेसी-612539एन), 17 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार मींगमा तेन्जी शेरपा (सं 5345082एन अब जेसी-612540एच), 17 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार तुला राम गुरूंग (सं 5345495एक्स अब जेसी-612541एल),
11 मार्च 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार बुधीमान गुरूंग (सं 5345496ए अब जेसी-612542एन),
12 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार ऊत्तर सिंह गुरूंग (सं 5344966एन अब जेसी-612543डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004
- हवलदार नर बहादुर थापा (सं 5345146एन अब जेसी-612544वाई),
17 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)
हवलदार राम बहादुर थापा (सं 5345145एल अब जेसी-612545एफ), 13 मार्च 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)
हवलदार मन बहादुर गुरूंग (सं 5345618वाई अब जेसी-612546के),
07 फरवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)
हवलदार जीत बहादुर गुरूंग (सं 5344967डब्ल्यू अब जेसी-612547एम), 29 जनवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार टरका बहादुर राना (सं 5345060पी अब जेसी-612548पी),
29 जनवरी 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)
हवलदार अजय गुरूंग (सं 5345138पी अब जेसी-612549एक्स),
06 अप्रैल 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मार्च 2004)
हवलदार गनेश बहादुर बुरा (सं. 5344766एक्स अब जेसी-612550एम), 01 मार्च 2004
- हवलदार आश बहादुर गुरूंग (सं. 5345135पी अब जेसी-612551पी),
01 मार्च 2004
- हवलदार दिल बहादुर पुन, एस एम (सं. 5344919डब्ल्यू अब जेसी-612552एक्स), 01 मार्च 2004
- हवलदार कुल बहादुर गुरूंग (सं. 5344969एफ अब जेसी-612553ए),
01 मार्च 2004
- हवलदार पीरथ बहादुर पुन (सं. 5344978एच अब जेसी-612554एच), 01 मार्च 2004
- हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 5345375वाई अब जेसी-612555एल),
06 अप्रैल 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2004)
हवलदार प्रेम बहादुर राना (सं 5345589पी अब जेसी-612556एन),
01 अप्रैल 2004
- हवलदार नीर बहादुर छेत्री (सं 5345421एच अब जेसी-612557डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2004)
हवलदार लील बहादुर गुरूंग (सं 5345600एच अब जेसी-612558वाई), 05 अप्रैल 2004
- (ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2004)
9 जी आर
सूबेदार के रैंक में
रैंक, नाम, आर्मी/जेसी सं., पदोन्नति की तिथि
नायब सूबेदार धमन बहादुर खडका (जेसी-629440एन), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार युद्ध वीर (जेसी-629439वाई), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार टंकू बीम मल्ला (जेसी-629497एच), 15 मार्च 2004/01 जनवरी 2004x
नायब सूबेदार राम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629505डब्ल्यू), 21 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004x
नायब सूबेदार टाकुर प्रसाद पीडियल (जेसी-629378एम), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार कुलदीप कुमार (जेसी-629379पी), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार शेर बहादुर क्षेत्री (जेसी-629372एल), 26 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003x
नायब सूबेदार मन बहादुर क्षेत्री (जेसी-629519डब्ल्यू), 04 मार्च 2004/01 जनवरी 2004x
नायब सूबेदार खडका बहादुर थापा (जेसी-629517एल), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार गंवर बहादुर मल्ला (जेसी-629523वाई), 15 मार्च 2004/01 जनवरी 2004x

नायब सूबेदार जनक बहादुर थापा (जेसी-629471एन), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार मोहन कुमार क्षेत्री (जेसी-629473वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार/क्लर्क अर्जुन बहादुर केसी (जेसी-629411वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार चित्र बहादुर खत्री (जेसी-629493एम), 10 मार्च 2004/01 सितम्बर 2003*

नायब सूबेदार पूर्ण प्रकाश थापा (जेसी-629355एल), 22 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार कुल बहादुर घर्ती क्षेत्री (जेसी-629437एन), 14 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार टंका बहादुर क्षेत्री (जेसी-629446पी), 13 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार नर बहादुर शाही (जेसी-629455डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर चंद (जेसी-629503एल), 08 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार टीका बहादुर क्षेत्री (जेसी-629506वाई), 04 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार इन्द्र बहादुर भंडारी (जेसी-629515ए), 04 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003*

नायब सूबेदार रविन्द्र प्रसाद कौर (जेसी-629438डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003*

नायब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जेसी-629453एल), 17 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003*

नायब सूबेदार भीम बहादुर कुनवर (जेसी-629414एक्स), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार तारा बहादुर खत्री (जेसी-629540वाई), 05 मार्च 2004/01 फरवरी 2004*

नायब सूबेदार राम कुमार क्षेत्री (जेसी-629526एम), 05 मार्च 2004/01 फरवरी 2004*

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर अधिकारी (जेसी-629525के), 05 मार्च 2004/01 फरवरी 2004*

नायब सूबेदार तेक बहादुर थापा क्षेत्री (जेसी-629424डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार होम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629524एफ), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार केशव दत्त भट (जेसी-629441डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार नेत्र राम पाण्डेय (जेसी-629478एक्स), 15 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

नायब सूबेदार रेम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629531एक्स), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार ददी नारायण क्षेत्री (जेसी-629498एल), 12 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

नायब सूबेदार संजीवन मल (जेसी-629429पी), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629449एच), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

नायब सूबेदार देबेन्द्र प्रसाद क्षेत्री (जेसी-629541एफ), 01 मार्च 2004

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

नायब सूबेदार गोविंद बहादुर क्षेत्री (जेसी-629538एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार कल्याण बहादुर क्षेत्री (जेसी-629442वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार हेम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629499एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अमृत बहादुर अधिकारी (जेसी-629500एक्स), 17 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004*

सूबेदार बुद्धी बहादुर क्षेत्री (जेसी-629149एफ), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार रन बहादुर शाही (जेसी-629209एल), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार शिव बहादुर क्षेत्री (जेसी-629224ए), 01 जनवरी 2004

सूबेदार धर्म राज बनिया (जेसी-629183एफ), 01 जनवरी 2004

सूबेदार युद्ध बहादुर भंडारी (जेसी-629169पी), 01 जनवरी 2004

सूबेदार दल बहादुर थापा (जेसी-629186पी), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार/क्लर्क बीर बहादुर ठाकुरी (जेसी-629150डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004

11 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भीम बहादुर लिम्बु (जेसी-634416एफ), 23 अप्रैल 2004*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

नायब सूबेदार कुमार जिम्बा (जेसी-634358एन), 05 अप्रैल 2004#

#(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

नायब सूबेदार तिलक बहादुर राई, बीर चक्र (जेसी-634304एफ), 06 अप्रैल 2004\$

\$(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

नायब सूबेदार जीत बहादुर छेत्री (जेसी-634296एन), 05 अप्रैल 2004)@

@(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2004)

नायब सूबेदार कुमार राई (जेसी-634342एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार ईश्वर कुमार राई (जेसी-634357ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टका बिर लिम्बु (सं. 9415900एच अब जेसी-634535एक्स), 28 फरवरी 2004@

@ (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

हवलदार भीम बहादुर लिम्बु (सं. 9416820एक्स अब जेसी-634536ए), 05 मार्च 2004#

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार कृष्णा बहादुर राई (सं. 9415694के अब जेसी-634537एच), 08 मार्च 2004\$

\$ (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

हवलदार गणेश मान लिम्बु (सं. 9416882एक्स अब जेसी-634538एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार टेक बहादुर राई (सं. 9417086एफ अब जेसी-634539एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार बिकरम पचभैया (सं. 9417096एल अब जेसी-634540एच), 01 अप्रैल 2004

जाट रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-488771एच), 01 जून 2002

नायब सूबेदार जगमेन्द्र सिंह (जेसी-488780के), 01 जून 2002

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-488781एम), 12 अगस्त 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-488761वाई), 01 जून 2002

नायब सूबेदार कपूर सिंह (जेसी-488792वाई), 11 जुलाई 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नृजपाल सिंह (जेसी-488823एन), 01 जून 2002

नायब सूबेदार चान्दी राम (जेसी-488827के), 01 जून 2002

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-488852एच), 01 जून 2002

नायब सूबेदार गोरधन राम (जेसी-488815पी), 22 जून 2002

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-488764एम), 23 जून 2002

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-488772एल), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार रण सिंह (जेसी-488782पी), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार राम कला बुल (जेसी-488939के), 24 दिसम्बर 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जेसी-488816एक्स), 01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-488828एम), 29 अक्टूबर 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ऋषिपाल सिंह (जेसी-488735एक्स), 15 जुलाई 2002

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-488665के), 20 जुलाई 2002

नायब सूबेदार लच्छी सिंह (जेसी-488679के), 20 जुलाई 2002

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-488868एन), 29 जुलाई 2002

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-488494एच), 16 सितम्बर 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरफूल सिंह (जेसी-488698पी), 23 जनवरी 2003×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-488765पी), 21 सितम्बर 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-488796पी), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-488811वाई), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-488742एन), 19 अगस्त 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-488812एफ), 10 अक्टूबर 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गजेन्द्र पाल सिंह (जेसी-488813के), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार बलजीत सिंह सांगवान (जेसी-488757डब्ल्यू), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार दलपत सिंह (जेसी-488758वाई), 20 अगस्त 2002×

× (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिव लाल (जेसी-488847एक्स), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार रामफल सिंह छलान (जेसी-488848ए), 01 अगस्त 2002

नायब सूबेदार अलबेल सिंह (जेसी-488829पी), 01 अगस्त 2002
नायब सूबेदार रोहताश (जेसी-488876एम), 14 अगस्त 2002×
×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिश राम (जेसी-488888एफ), 01 अगस्त 2002
नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-488635एम), 01 सितम्बर 2002
नायब सूबेदार विद्याधर सिंह (जेसी-488699एक्स), 20 जनवरी 2003×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्ण पाल (जेसी-488797एक्स), 01 सितम्बर 2002
नायब सूबेदार समेर सिंह नरवाल (जेसी-488826एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-488874एफ), 01 सितम्बर 2002
नायब सूबेदार राम प्रसाद ठकरवाल (जेसी-488941एफ), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-488908के), 04 सितम्बर 2002
नायब सूबेदार लच्छी राम जाट (जेसी-488909एम), 05 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-488920एल), 05 सितम्बर 2002
नायब सूबेदार श्री चन्द जाखड़ (जेसी-488822एल), 07 सितम्बर 2002

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रामोतार (जेसी-488585एम), 01 मई 2003
नायब सूबेदार लिपिक सरदार सिंह (जेसी-488586पी), 01 मई 2003

नायब सूबेदार लिपिक सुमेर सिंह (जेसी-488587एक्स), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार लिपिक देवेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-488588ए), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार लिपिक महेश कुमार (जेसी-488589एच), 03 सितम्बर 2003×

×(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक रमेश चन्द यादव (जेसी-488598के), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक जगदीश राम शर्मा (जेसी-488601वाई), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक सत्यवीर सिंह (जेसी-488602एफ), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक दलबीर सिंह (जेसी-488646वाई), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार लिपिक हरवीर सिंह दुहून (जेसी-488683एम), 21 अप्रैल 2004×

×(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक धूप सिंह स्योरण (जेसी-488685एक्स), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार लिपिक ग्यारसी लाल (जेसी-488695एफ), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भंवराम (सं. 3175210वाई अब जेसी-489456वाई), 31 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मई 2003 से दी जायेगी)

हवलदार बनवारी लाल जाट (सं. 3177848के अब जेसी-489457एफ), 12 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार उमेद सिंह (सं. 3173621वाई अब जेसी-489458के), 03 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 3173816के अब जेसी-489459एम), 01 फरवरी 2004

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3174007डब्ल्यू अब जेसी-489460एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार मंगा राम (सं. 3180063एल अब जेसी-489461के), 05 मार्च 2004

हवलदार हवा सिंह भूरिया (सं. 3179916एल अब जेसी-489464एक्स), 20 सितम्बर 2003

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3180194डब्ल्यू अब जेसी-489465ए), 01 नवम्बर 2003

हवलदार देवी सिंह (सं. 3175404एफ अब जेसी-489466एच), 01 अप्रैल 2004

कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार किशन सिंह (सं. 4175099डब्ल्यू अब जेसी-539435एफ), 12 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई)

- हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4175403पी अब जेसी-539436के), 12 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2003 से दी गई)
- हवलदार किशन सिंह (सं. 4174295के अब जेसी-539441पी), 15 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार मनोहर सिंह शाही (सं. 4177670पी अब जेसी-539442एक्स), 15 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 4174349ए अब जेसी-539452एफ), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार लाल सिंह (सं. 4174330एफ अब जेसी-539453के), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार चन्द्रा बल्लभ (सं. 4175002ए अब जेसी-539454एम), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार किशन सिंह (सं. 4175010वाई अब जेसी-539455पी), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार बिशन सिंह (सं. 4175022एन अब जेसी-539456एक्स), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार नारायण दत्त (सं. 4175013एम अब जेसी-539457ए), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4175121डब्ल्यू अब जेसी-539458एच), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- सी. क्यू. एम. एच. हुकम सिंह (सं. 4175846डब्ल्यू अब जेसी-539459एल), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार हीरा सिंह (सं. 4177045एन अब जेसी-539460ए), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार खडक सिंह (सं. 4175700एच अब जेसी-539461एच), 26 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- सी.एच.एम. हरीश चन्द्र सिंह (सं. 4177777के अब जेसी-539424पी), 20 दिसम्बर 2003/13 अक्टूबर 2003×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 अक्टूबर 2003 से दी गई)
- हवलदार कंवर सिंह (सं. 4175223एम अब जेसी-539443ए), 15 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार जय करन सिंह (सं. 4175930डब्ल्यू अब जेसी-539444एच), 15 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार दलीप सिंह यादवा (सं. 4179979के अब जेसी-539445एल), 15 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार सुबे सिंह (सं. 4175945वाई अब जेसी-539466एफ), 08 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार जोगेन्द्र सिंह, वीर चक्र (सं. 4180458एच अब जेसी-539467के), 08 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)
- हवलदार गनेश सिंह (सं. 4179742एम अब जेसी-539462एल), 28 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×
 ×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

सी.एच.एम. आनन्द सिंह मेहरा (सं. 4175737के अब जेसी-539464डब्ल्यू), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 4175744ए अब जेसी-539438पी), 14 जनवरी 2004/10 दिसम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 दिसम्बर 2003 से दी गई)

सी.क्यू.एम.एच. कुन्दन सिंह (सं. 4185413एम अब जेसी-539440एम), 14 जनवरी 2004/10 दिसम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 दिसम्बर 2003 से दी गई)

सी.एच.एम. जगदीश सिंह नेगी (सं. 4178041के अब जेसी-539439एक्स), 14 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार राम चन्द्र (सं. 4172682ए अब जेसी-539431एल), 02 जनवरी 2004/01 सितम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दी गई)

हवलदार अमीर सिंह (सं. 4173562एन अब जेसी-539432एन), 04 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार सी.क्यू.एम.एच. राम कुमार, सेना मेडल (सं. 4173600वाई अब जेसी-539433डब्ल्यू), 04 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार महावीर प्रसाद यादवा (सं. 4174261डब्ल्यू अब जेसी-539434वाई), 04 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार दलीप सिंह (सं. 4174933एक्स अब जेसी-539463एन), 01 फरवरी 2004

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 4173941के अब जेसी-539425एक्स), 27 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी गई)

सी.एच.एम. हुकम सिंह (सं. 4173636एक्स अब जेसी-539446एन), 18 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

सी.क्यू.एम.एच. देवराज सिंह (सं. 4178117वाई अब जेसी-539469पी), 10 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)

हवलदार राधा मोहन सिंह (सं. 4175630पी अब जेसी-539423एम), 07 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 2003 से दी गई)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4174271ए अब जेसी-539426ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4174311डब्ल्यू अब जेसी-539427एच), 01 जनवरी 2004

हवलदार मदन सिंह (सं. 4174280एफ अब जेसी-539447डब्ल्यू), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 4174086एम अब जेसी-539470के), 11 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)

हवलदार लज्जा राम (सं. 4175894डब्ल्यू अब जेसी-539448वाई), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

सी.क्यू.एम.एच. राजेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4172868के अब जेसी-539449एफ), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार अजय कुमार यादव (सं. 4180854वाई अब जेसी-539450डब्ल्यू), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार राम औतार (सं. 4175278डब्ल्यू अब जेसी-539451वाई), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

सी.क्यू.एम.एच. राम सिंह गरिया (सं. 4176826पी अब जेसी-539437एम), 12 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार ब्रह्म दत्त, सेना मेडल (सं. 4176982वाई अब जेसी-539428एल), 01 जनवरी 2004

हवलदार राजिन्द्र गिरी (सं. 4175490एफ अब जेसी-539468एम), 09 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4175755एम अब जेसी-539471एम), 12 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)

सी.क्यू.एम.एच. राम निवास (सं. 4180407पी अब जेसी-539465वाई), 06 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2004 से दी गई)

सी.एच.एम. रघुबीर सिंह (सं. 4174249पी अब जेसी-539430एच), 01 जनवरी 2004

सी.एच.एम. बाबू लाल (सं. 4172406एक्स अब जेसी-539429एन), 01 जनवरी 2004

नागा रेजीमेन्ट

सी.क्यू.एम.एच. खडक सिंह (सं. 4174378पी अब जेसी-590139वाई), 31 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी गई)

हवलदार कमल बहादुर (सं. 14701024वाई अब जेसी-590140एन), 16 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से दी गई)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार थापा (सं. 14701711पी अब जेसी-590141डब्ल्यू), 23 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004x

x(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी गई)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स सूबेदार मेजर जी.डी. के रैंक में

सूबेदार अमर नाथ (जेसी-578037डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-578253के), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2003

सूबेदार सिकन्दर सिंह (जेसी-578366के), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2004

सूबेदार जी.डी. के रैंक में

नायब सूबेदार जिआ लाल (जेसी-579166एच), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-579178एक्स), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार वीर बहादुर मल्ला (जेसी-578986एच), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-579187वाई), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2002

नायब सूबेदार विजय कुमार गथानिया (जेसी-579150एक्स), जैक राईफल्स, 27 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-579205डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2003

नायब सूबेदार रनवीर सिंह खरवाल (जेसी-579136एल), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-579155डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जून 2003

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-579043एफ), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-579272एफ), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार रवि दत्त (जेसी-579114एम), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-579191एफ), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-579210एफ), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार चमन लाल खगानीया (जेसी-579227पी), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2003

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-579132पी), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार लखविन्द्र सिंह (जेसी-579142वाई), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार सरूप चन्द (जेसी-579158के), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार सोधी राम (जेसी-579159एम), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार गणेश दास (जेसी-579228एक्स), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार यश पाल (जेसी-579275पी), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार गनी मोहम्मद (जेसी-579118एच), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार करतार सिंह ठाकुर (जेसी-579145एम), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-579202एच), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार मथरा दास रैना (जेसी-579260एम), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-579261पी), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-579281एच), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार मेजर जी.डी. क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क राज कुमार (जेसी-578256एक्स), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2004

सूबेदार जी.डी. क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सुभाष सिंह (जेसी-578793एच), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार क्लर्क देश राज (जेसी-578794एल), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार क्लर्क मोहन लाल (जेसी-578795एन), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार क्लर्क सरोज कुमार रतन (जेसी-578796डब्ल्यू),
जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार क्लर्क मोहिन्द सिंह (जेसी-578797वाई), जैक
राईफल्स, 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार क्लर्क तिलक राज शर्मा (जेसी-578818के), जैक
राईफल्स, 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार क्लर्क सतीश कुमार (जेसी-578834एफ), जैक
राईफल्स, 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार क्लर्क मधु सूदन (जेसी-578848एफ), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार क्लर्क केसर सिंह कटोच (जेसी-578849के), जैक
राईफल्स, 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार क्लर्क हरनाम सिंह (जेसी-578907एच), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार जी.डी. के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13743509के अब जेसी-579648एक्स),
25 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार जगदीप सिंह (सं. 13743821पी अब जेसी-579649ए),
06 नवम्बर 2003+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क जय पाल (सं. 13749567एम अब जेसी-579650पी),
01 जनवरी 2004

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 13742675एन अब जेसी-579651एक्स),
01 जनवरी 2004

हवलदार सदा नन्द (सं. 13742855डब्ल्यू अब जेसी-579652ए),
01 जनवरी 2004

हवलदार देश राज (सं. 13744581पी अब जेसी-579653एच),
02 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार टेक सिंह (सं. 13749760एक्स अब जेसी-579654एल),
01 जनवरी 2004

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 13744590डब्ल्यू अब जेसी-579655एन),
01 जनवरी 2004

हवलदार चरण सिंह (सं. 13744751एन अब जेसी-579656डब्ल्यू),
01 जनवरी 2004

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 13746069पी अब जेसी-579657वाई),
01 जनवरी 2004

हवलदार रतन बहादुर थापा (सं. 13743967एच अब
जेसी-579658एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार मन्जीत सिंह (सं. 13755443एन अब जेसी-579659के),
01 जनवरी 2004

हवलदार किशन बहादुर थापा (सं. 13745065एम अब
जेसी-579660वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 13743417ए अब जेसी-579661एफ),
02 जनवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13744703एन अब जेसी-579662के),
01 जनवरी 2004

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 13747615एच अब जेसी-579663एम),
01 जनवरी 2004

हवलदार रमेश लाल (सं. 13744568एल अब जेसी-579664पी),
01 जनवरी 2004

हवलदार विश्राम सिंह (सं. 13744607वाई अब जेसी-579665एक्स),
01 जनवरी 2004

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 13744833डब्ल्यू अब जेसी-579666ए),
01 जनवरी 2004

हवलदार वीरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 13744942एच अब जेसी-579667एच), 01 जनवरी 2004

हवलदार बालक राज (सं. 13744977वाई अब जेसी-579668एल),
01 जनवरी 2004

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 13744979के अब जेसी-579669एन),
01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार जी.डी. कलर्का के रैंक में

हवलदार जय पाल (सं. 13749567एम अब जेसी-579650पी),
01 जनवरी 2004

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संग्राम सिंह (3986927एफ अब जेसी-519838ए),
26 नवम्बर 2003

हवलदार अशोक कुमार (3980806के अब जेसी-519839एच),
14 जनवरी 2004

हवलदार खजान सिंह (3980985पी अब जेसी-519840एक्स),
01 फरवरी 2004

हवलदार नरेन्द्र सिंह (3981257एफ अब जेसी-519841ए),
20 फरवरी 2004

हवलदार रंगील सिंह (3981147एच अब जेसी-519842एच),
22 फरवरी 2004

हवलदार अमृत लाल (3981495एन अब जेसी-519843एच),
01 मार्च 2004

हवलदार वीरा राम (3981983डब्ल्यू अब जेसी-519844एन),
07 मार्च 2004

हवलदार रमेश चन्द (3983223एम अब जेसी-519845डब्ल्यू),
13 मार्च 2004

हवलदार प्रीतम चन्द (3979375डब्ल्यू अब जेसी-519846वाई),
04 मई 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार (3980441ए अब जेसी-519847एफ),
01 अप्रैल 2004

हवलदार राज बहादुर (3986787ए अब जेसी-519848के),
08 अप्रैल 2004

हवलदार कमलजीत सिंह (3982997एच अब जेसी-519849एम),
01 मई 2004

मराठ लाइट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पाटिल बालासो बाबुराव (सं. 2779197वाई अब जेसी-459285एच), 13 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार गोपाल अप्पाजी हेब्बालकर (सं. 2776227ए अब जेसी-459286एल), 01 फरवरी 2004

हवलदार उत्तम शिंदे (सं. 2785500एल अब जेसी-459287एन), 15 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कदम किराण अबा (सं. 2779235के अब जेसी-459293एफ), 05 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार शशीकांत रामचंद्र म्हापाडी (सं. 2778246के अब जेसी-459294के), 30 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सोनमाले हरीसचंद्र (सं. 2779630एक्स अब जेसी-459295एम), 01 मार्च 2004

हवलदार संभाजी अलोरी (सं. 2783499एच अब जेसी-459296पी), 18 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार शिंदे कुंडलीक सिद्राम (सं. 2781883एल अब जेसी-459297एक्स), 29 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार काले बाबासाहेब बाजीराव (सं. 2783380वाई अब जेसी-459298ए), 20 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कुंभार अरुण गणपती (सं. 2784334डब्ल्यू अब जेसी-459299एच), 19 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार गवस संतोष कृष्णा (सं. 2784495वाई अब जेसी-459300एम), 28 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार दत्ताजीराव आकाराम शिंदे (सं. 2777688डब्ल्यू अब जेसी-459301पी), 01 अप्रैल 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अनी उल्लाह (सं. 2781317एल अब जेसी-459302एक्स),
01 अप्रैल 2004

हवलदार शिंदे दत्तात्रेय गोविंदराव (सं. 2781770एच अब
जेसी-459303ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार भोसले संजय कुमार प्रह्लाद (सं. 2782790एच अब जेसी-
459304एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार उतेकर मारुती नामु (सं. 2778938वाई अब जेसी-
459305एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार शिंदे संजय सखाराम (सं. 2784740डब्ल्यू अब जेसी-
459306एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार देसाई प्रवीण जयसिंगराव (सं. 2783241पी अब जेसी-
459307डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार खोत मछींद्रा सिद्राम (सं. 2785364ए अब जेसी-
459308वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार के ए सुब्बया (सं. 2782078एन अब जेसी-459309एफ),
01 अप्रैल 2004

हवलदार मोहिते संजयकुमार बालासाहेब (सं. 2782112एच अब
जेसी-459310डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार खेरनार अशोक शंकर (सं. 2782452एल अब
जेसी-459311वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जगदाले दिलीपकुमार शंकरराव (सं. 2780210के
अब जेसी-459288डब्ल्यू), 19 फरवरी 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लिपिक बालकृष्णा दास (सं. 2780542एन अब
जेसी-459289वाय), 15 फरवरी 2004

हवलदार लिपिक जांबे गोरखनाथ महादेव (सं. 2780551पी अब
जेसी-459290एन), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक संजीव मोहन के (सं. 2780709एम अब
जेसी-459291डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक गजराज सिंह (सं. 2780979एफ अब
जेसी-459292वाई), 01 मार्च 2004

सिख रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-211122एन), 04 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अंगरेज सिंह (जेसी-498990एक्स), 06 जनवरी
2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-498972पी), 19 जनवरी 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुलखन सिंह (जेसी-498816एल), 01 जनवरी 2004×

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दलवारा सिंह (जेसी-498864एल), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-498902डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-216563एन), 01 मार्च 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजैब सिंह (जेसी-498832एच), 07 फरवरी 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
30 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-498818डब्ल्यू), 11 अप्रैल
2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-498983एफ), 01 मार्च 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-499004के), 25 फरवरी 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-498897डब्ल्यू), 11 अप्रैल 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
23 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-498799डब्ल्यू), 20 मार्च 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुखा सिंह (जेसी-498917वाई), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार पलविन्दर सिंह (जेसी-498926ए), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार सुखचरन सिंह (जेसी-498950डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-498933डब्ल्यू), 01 मार्च
2004

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-498973एक्स), 27 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-499016वाई), 02 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-499007एक्स), 04 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-499069एक्स), 11 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-498964डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2003
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार करम सिंह (जेसी-498910एच), 30 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मखन सिंह (जेसी-499064वाई), 05 मई 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुखचैन सिंह (जेसी-498989एच), 06 मई 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-499012एच), 11 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लखबिर सिंह (जेसी-499013एल), 11 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार लोचन सिंह (जेसी-499037पी), 11 अप्रैल 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सुखदेव सिंह (जेसी-498762एच), 29 अप्रैल 2004
(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परीतपाल सिंह (3384804वाई अब जेसी-499371डब्ल्यू), 28 मार्च 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुखपाल सिंह (3386330एफ अब जेसी-499372वाई), 21 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सेवक सिंह (3386451एच अब जेसी-499373एफ), 07 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार गुरमेल सिंह (3386890एन अब जेसी-499374के), 24 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार बच्चतर सिंह (3382546एल अब जेसी-499375एम), 23 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार मेहर सिंह (3386501एच अब जेसी-499376पी), 28 मार्च 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार हरजीत सिंह (3387012के अब जेसी-499377एक्स), 23 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार फौजा सिंह (3386308डब्ल्यू अब जेसी-499378ए), 20 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार नरंजन सिंह (3388685एल अब जेसी-499379एच), 23 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लखबीर सिंह (3387045पी अब जेसी-499380एक्स), 20 अप्रैल 2004
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार हरनेक सिंह (3387035एल अब जेसी-499381ए),
19 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार हीरा सिंह (3387287एक्स अब जेसी-499382एच),
19 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार कमलजीत सिंह (3387423एच अब जेसी-499383एल),
26 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार देव सिंह (3387006डब्ल्यू अब जेसी-499384एन),
22 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क जबर सिंह (3383936ए अब जेसी-499385डब्ल्यू),
-01 अप्रैल 2004

हवलदार क्लर्क मिथलेश प्रसाद (3383596एच अब जेसी-
499386वाई), 15 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क हरभजन सिंह (3381530एन अब जेसी-
499387एफ), 26 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क प्रमोद कुमार तिवारी (3381757एफ अब जेसी-
499388के), 29 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कश्मीर सिंह (3391692एम अब जेसी-
499321एल), 28 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मार्च 2003 से दी जाएगी)

हवलदार हजुरा सिंह (3381084एक्स अब जेसी-
499322एन), 18 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार रिशपाल सिंह (3378744वाई अब जेसी-
499323डब्ल्यू), 18 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार बिन्दर सिंह (3384617ए अब जेसी-
499324वाई), 28 दिसम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार जसविन्दर सिंह (3384773के अब जेसी-
499325एफ), 13 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार सिन्दर सिंह (3385454के अब जेसी-
499326के), 13 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार पलविन्दर सिंह (3385818एल अब जेसी-
499327एम), 13 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (3384865डब्ल्यू अब जेसी-
499328पी), 20 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार रत्न सिंह (3385242वाई अब जेसी-
499329एक्स), 02 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुरिन्दर सिंह (3386818एक्स अब जेसी-
499330एम), 07 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार गुरभेज सिंह (3381662एफ अब जेसी-
499331पी), 08 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ऋलदीप सिंह (3382102एफ अब जेसी-
499332एक्स), 08 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अश्वतार सिंह (3388018एक्स अब जेसी-499333ए), 01 फरवरी 2004×

हवलदार जरनैल सिंह (3385578वाई अब जेसी-499334एच), 05 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार परमजीत सिंह (3385615एफ अब जेसी-499335एल), 05 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार रघबीर सिंह (3386848पी अब जेसी-499336एन), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क केवल कृष्ण (3383794एन अब जेसी-499337डब्ल्यू), 24 नवम्बर 2003×

×(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दलजीत सिंह (3385337वाई अब जेसी-499338वाई), 14 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार जसपाल सिंह (3387509एफ अब जेसी-499339एफ), 25 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार दरशन सिंह (3381290एफ अब जेसी-499340डब्ल्यू), 05 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार पुरन सिंह (3383606एफ अब जेसी-499341वाई), 16 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार दिदार सिंह (3382987एफ अब जेसी-499342एफ), 05 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सकतर सिंह (3385000डब्ल्यू अब जेसी-499343के), 16 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

पैराशूट रेजिमेन्ट
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-220103के), 09 जनवरी 2004

सूबेदार देवी चन्द, वी एस एम (जेसी-220109एल), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) ओम प्रकाश यादव (जेसी-412161एच), 02 नवम्बर 2003

सूबेदार (लिपिक) बलविन्दर सिंह (जेसी-412162एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगत राम (जेसी-412525के), 13 मई 2003

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-412486एन), 29 अगस्त 2003

नायब सूबेदार सतविन्दर सिंह (जेसी-412559एक्स), 29 अगस्त 2003

नायब सूबेदार जयपाल (जेसी-412554वाई), 29 अगस्त 2003

नायब सूबेदार उत्तम जन्बा टिक्का (जेसी-412555एफ), 29 अगस्त 2003

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-412498एल), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार संजय पाटिल (जेसी-412580ए), 06 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जेसी-412581एच), 06 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-412442वाई), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार कुमार देसाई सत्यवान भोलानाथ (जेसी-412626ए), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-412542के), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार कंदार सिंह (जेसी-412545ए), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-412451ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार घनन सिंह (जेसी-412506वाई), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-412573के), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार दौलत सिंह (जेसी-412574एम), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-412546ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार भालवा राम गुजर (जेसी-412547ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार दशरथ सिंह (जेसी-412544पी), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार दलजीत कुमार (जेसी-412361वाई), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार सुरेश सिंह अहलावत (जेसी-412363के), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार कैलाश चन्द (जेसी-412492के), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-412392वाई), 05 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-412393एफ), 05 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-412568वाई), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार शिव करण सिंह (जेसी-412584डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) नरेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-412401पी),
 01 अप्रैल 2004

विशेष सूची
 पंजाब रेजिमेंट
 सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-216467वाई), 01 सितम्बर 2003
 सूबेदार हरदयाल सिंह (जेसी-216469के), 01 नवम्बर 2003
 सूबेदार विजय कुमार (जेसी-428174के), 15 नवम्बर 2003
 सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-428132एक्स), 01 दिसम्बर 2003
 सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-428264एल), 01 जनवरी 2004
 सूबेदार रत्न चन्द (जेसी-428292एक्स), 01 जनवरी 2004
 सूबेदार बगीचा सिंह (जेसी-220882एक्स), 01 फरवरी 2004
 सूबेदार हंस राज (जेसी-428179एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-429090एच), 06 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-428973ए), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार जीत सिंह (जेसी-429056एच), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-429096के), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार परशोतम सिंह (जेसी-429133एम), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार भरत राज कॉडल (जेसी-429084पी), 20 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार शिव चन्द (जेसी-429174डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-429213के), 28 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-429256वाई), 28 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-429102एम), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार बलवान सिंह सुम्बरिया (जेसी-429182पी), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार सन्त राम वर्मा (जेसी-429202एक्स), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-428663पी), 05 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-429048के), 06 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-429134पी), 08 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-428953एम), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार रुप लाल (जेसी-429298एल), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार सुखजिन्द सिंह (जेसी-429335एन), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-428837के), 18 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार कर्म चन्द (जेसी-429113वाई), 23 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-428746ए), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार प्रेम लाल भारद्वाज (जेसी-429007ए), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार जसविन्द्र सिंह (जेसी-429066एम), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-429173एन), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार रणपाल सिंह (जेसी-428976एन), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार सन्तोख सिंह (जेसी-429033एच), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार दलेर सिंह (जेसी-429085वाई), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-429199एच), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार मिण्यूशिन के रैंक में

हवलदार (मिण्यूशिन) जसवन्त सिंह (सं. 2474105वाई अब
 जेसी-429522एम), 21 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कर्म सिंह (सं. 2475476एन अब जेसी-429503एफ),
 05 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 2475891पी अब जेसी-429510एक्स),
 05 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार करनैल सिंह (सं. 2472972के अब जेसी-429511ए),
26 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बेद सिंह (सं. 2475607एन अब जेसी-429523पी),
01 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जय पाल सिंह (सं. 2472566के अब जेसी-429504के),
10 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 2474749वाई अब जेसी-429513एल),
05 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2475804डब्ल्यू अब जेसी-429514एन),
05 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जसविन्द्र सिंह (सं. 2476807डब्ल्यू अब जेसी-429505एम),
20 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 2476785एच अब जेसी-429528एन),
25 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सुदर्शन कुमार (सं. 2472653एक्स अब जेसी-429506पी),
31 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार रत्न चन्द (सं. 2470674पी अब जेसी-429512एच),
28 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार चूनी लाल (सं. 2473107एक्स अब जेसी-429529डब्ल्यू),
24 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सुखदेव सहोत्रा (सं. 2472735ए अब जेसी-429507एक्स),
08 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार मुख्त्यार सिंह (सं. 2473143एच अब जेसी-429530एल),
02 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कमेर सिंह (सं. 2471037एल अब जेसी-429508ए),
11 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 2477876वाई अब जेसी-429509एच),
01 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 2477334पी अब जेसी-429515डब्ल्यू),
16 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 2473498एन अब जेसी-429516वाई),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 2474851एफ अब जेसी-429517एफ),
12 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 2472938के अब जेसी-429524एक्स),
11 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 2471742के अब जेसी-429531एन),
25 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सुशील कुमार (सं. 2475621ए अब जेसी-429532डब्ल्यू),
25 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 2476373एफ अब जेसी-429533वाई),
01 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार राजा सिंह (सं. 2472866एल अब जेसी-429518के),
01 जनवरी 2004

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 2473992के अब जेसी-429519एम),
25 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार चरणजीत सिंह (सं. 2477945के अब जेसी-429520एफ),
16 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 2477504एन अब जेसी-429521के),
25 जनवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार ईशवर दास (सं. 2471800एच अब जेसी-429534एफ),
28 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 2479025एल अब जेसी-429535के),
24 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत सिंह डोगरा (सं. 2473529एच अब
जेसी-429525ए), 20 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 2472560एच अब जेसी-429536एन),
25 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 2474519एल अब जेसी-429537पी),
01 मार्च 2004

हवलदार बलविन्द्र सिंह (सं. 2475273के अब जेसी-429538एक्स),
01 मार्च 2004

हवलदार रमेश चन्द (सं. 2471920एफ अब जेसी-429539ए),
23 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक के रैंक में

आर आर टी (पंडित) योगेन्द्र पाठक (जेसी-429269डब्ल्यू),
30 नवम्बर 2002

आर आर टी (ग्रन्थी) तलविन्दर सिंह (जेसी-429270एल),
30 नवम्बर 2002

आर आर टी (ग्रन्थी) गुरप्रीत सिंह (जेसी-429271एन), 30 नवम्बर
2002

आर आर टी (ग्रन्थी) मेजर सिंह (जेसी-429409एक्स), 01 नवम्बर
2003

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तिलक राज (सं. 2471015एम अब जेसी-429480एल),
02 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2003 से दी जाती है)

हवलदार बलवान्त सिंह (सं. 2476075एल अब जेसी-429473पी),
23 अक्टूबर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 जुलाई 2003 से दी जाती है)

हवलदार गुरदाब सिंह (सं. 2474820एफ अब जेसी-429495एन),
26 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 2476815पी अब जेसी-429496डब्ल्यू),
26 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 2473125ए अब जेसी-429481एन),
24 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 2471599एच अब जेसी-429482डब्ल्यू),
24 अक्टूबर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार रेशम सिंह (सं. 2477828वाई अब जेसी-429483वाई),
20 अक्टूबर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 2476348एच अब जेसी-429497वाई),
26 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)

- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2473219एक्स अब जेसी-429474एक्स),
05 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार प्रेम पाल (सं. 2472784एच अब जेसी-429475ए),
25 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार बेसर राम (सं. 2474490एन अब जेसी-429484एफ),
22 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2472373के अब जेसी-429476एच),
18 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार तरलोचन सिंह (सं. 2479596के अब जेसी-429485के),
29 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार दर्शन लाल (सं. 2472476एच अब जेसी-429486एम),
07 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार अमर सिंह (सं. 2474344एन अब जेसी-429498एफ),
29 दिसम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार ध्यान सिंह (सं. 2470558एम अब जेसी-429477एल),
21 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार बलबीर चन्द (सं. 2472327पी अब जेसी-429487पी),
21 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार अमर नाथ (सं. 2472088एल अब जेसी-429478एन),
23 अक्टूबर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 2477968पी अब जेसी-429499के),
07 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार अयोध्या कुमार राणा (सं. 2474957एन अब जेसी-429488एक्स), 09 दिसम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार स्वरूप सिंह (सं. 2471482के अब जेसी-429489ए),
01 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 2471764एच अब जेसी-429490पी),
01 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार जगदीश सिंह (सं. 2472931ए अब जेसी-429491एक्स),
02 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार बीरी सिंह (सं. 2473279एम अब जेसी-429492ए),
22 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 2470893डब्ल्यू अब जेसी-429500एन),
20 दिसम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2473921एच अब जेसी-429501डब्ल्यू),
04 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार दर्शन सिंह (सं. 2476662डब्ल्यू अब जेसी-429502वाई),
25 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)
- हवलदार दलीप सिंह (सं. 2478971एक्स अब जेसी-429493एच),
18 नवम्बर 2003
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 2478814एल अब जेसी-429494एल),
15 नवम्बर 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
प्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2471031के अब जेसी-429479डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2003

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 413, दिनांक 16 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी
की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन
मेजर बनाया जाता है

राजेश कुमार डोगरा (टी ए सं. 42032) इन्फैंट्री, 08 फरवरी 2002
कैप्टन बनाया जाता है

नागराजन कृष्णास्वामी (टीए-41817) ए एस सी, 28 जुलाई
2003

एम एल शर्मा
अवर सचिव

सं. 414, दिनांक 20 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित
अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान से मेजर

आई सी नं., नाम व आर्म

41789 बिजय सिन्हा, ए एस सी

27 अक्टूबर 2001

(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

44841 एन एस थापा, ए ओ सी

46433 वी एस मधु, इंजी.

46536 देवताले खितिश मानिक, ई एम ई

27 अक्टूबर 2002

(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

45782 कार्तिक कुमार राजवंशी, जैग

46395 सन्दीप कुमार, जैग

14 अप्रैल 2002

(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 14 अप्रैल 2003 से देय)

54761 विजय पाल सिंह मलिक, जैग

21-अप्रैल 2003

लेफ्टिनेण्ट से कैप्टन

एस एल नं., नाम एवं आर्म

4599 सी रवि कुमार, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4600 बी के शर्मा, इंजीनियर्स, ए ई ई ई/एम

4601 के दामोदरन, इंजीनियर्स, आई ई एम

4602 बी रामा राव, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4606 बालकृष्ण, इंजीनियर्स, ए ई ई ई/एम

4608 पी रमेश कुमार, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4609 स्टेनली पी वल्लूरन, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4610 साईबी जोसफ, इंजीनियर्स, ए ई ई ई/एम

4611 के सेल्वारराज, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4612 सुदर्शन कुमार, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4615 दिनेश कुमार, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

4616 एस बी सिंह, एस एल आर ओ

4617 पी राजनगम, एस एल आर ओ

4618 लाला राम सिनवार, एस एल आर ओ

4619 महेन्द्र सिंह कहराना, सिग्नल्स, सी आई पी एच ओ एफ
एफ

4620 फ्रांसिस सी जे, एस एल आर ओ

4621 उज्जयल मुखोपाध्याय, सिग्नल्स, टी ओ टी

4622 हरेन्द्र सिंह, ए डी आर्टी, टी ओ टी (ए डी)

4623 मोहर सिंह, एस एल आर ओ

4624 सन्नी जोसफ एम, एस एल आर ओ

4626 जयपाल सिंह पूनिया, एस एल आर ओ

4627 सुरेश बाबू डी एस एल आर ओ

4628 प्रसन्न बी, एस एल आर ओ

4629 लीलाधर जोशी, एस एल आर ओ

4630 वशीष कुमार, एस एल आर ओ

4631 दीपक रॉय, सिग्नल्स, सी आई पी एच ओ एफ एफ

4632 भुवन चन्द्र जोशी, एस एल आर ओ

4635 सी एल बलराज, एस एल आर ओ

4636 बिरेन्द्र कुमार सिंह, एस एल आर ओ

4637 गुरपाल सिंह, एस एल आर ओ

4639 संजीवन नाथर एस, एस एल आर ओ

4641 एम मुरली, इंजीनियर्स, असिस्टेन्ट आर्क

4643 कर्मवीर सिंह डागूर, ई एम ई, ई एम ए ई

4644 कुलदीप चन्द्र जग्गी, एस एल आर ओ

4645 अनिल दत्त शर्मा, ई एम ई, ई एम ए ई

- 4646 प्रसाधन के डी, ई एम ई, ई एम ए ई (एस ए)
 4647 भजन सिंह वर्मा, एस एल आर ओ
 4648 बलबीर सिंह चौधरी, एस एल आर ओ
 4649 आर सुभाष चन्द्र बोस, एस एल आर ओ
 4650 महाबीर सिंह, एस एल आर ओ
 4651 मेहरबान सिंह, ई एम ई, ई एम ए ई
 4652 हरजूले अशोक षाबूराव, एस एल आर ओ
 4653 राममूर्ति जे, एस एल आर ओ
 4655 नारायण सिंह, ई एम ई, ई एम ए ई
 4656 के पी तिवारी, इंजीनियर्स, ए ई ई बी/आर

--24 अप्रैल 2004

के एस वर्मा
 संयुक्त निदेशक
 एम एस 8सी

वायु सेना मुख्यालय

सं. 415, दिनांक 15 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित सहायक निदेशकों (राजभाषा), (ग्रुप ख राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में दिनांक 01 अप्रैल 2004 से अगले आदेश जारी होने तक अथवा 30 सितम्बर 2004 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रेड 1, (ग्रुप ख राजपत्रित) वेतनमान 7500-12000/- के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं :--

क्रम	नाम
1.	श्रीमती सुशीला पालिवाल
2.	श्री जगदीश चन्द्र सेठी

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

क. यह पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।

ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी तदर्थ नियुक्ति की अवाधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

राष्ट्रपति सहर्ष, सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में निम्नलिखित नक्शा नवीस ग्रेड I को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से मुख्य

रेखाचित्र अधिकारी, (ग्रुप बी राजपत्रित), वेतनमान 6500-10500/- के पद पर पदोन्नत करते हैं :--

- श्री राजिन्दर कुमार -- 22 मार्च 2004
 श्री वेद प्रकाश शर्मा -- 22 मार्च 2004
 श्री वाई एल जयसिंह -- 22 मार्च 2004
 श्री आजाद सिंह -- 17 मार्च 2004

सन्तोष दासगुप्ता
 उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(सेना शाखा)

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

शुद्धि-पत्र

सं. 416, दिनांक 20 जुलाई 2004--भारत सरकार के राजपत्र संख्या 235, दिनांक 27 मई 2000 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेवा" के अन्तर्गत उपशीर्षक "अल्पकालीन सेवा आयोग लै. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या 38014 के सामने (जी सी के नाम के कॉलम के नीचे)

के लिये

वाल भादुर पुन

पढ़ें

वाल बहादुर पुन

भारत सरकार के राजपत्र संख्या 444, दिनांक 23 सितम्बर 2000 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेवा" के अन्तर्गत उपशीर्षक "अल्पकालीन सेवा आयोग लै. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

क्रम संख्या 7 के सामने (आर्म/सर्विस कॉलम के नीचे)

के लिये

सिगनल

पढ़ें

इंजीनियर

विजय सहगल

लै. कर्नल

सह सेना सचिव/एम एस 8वी

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

New Delhi, the 14th August 2004

No. 406, dated the 16th July 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

TERRITORIAL ARMY COMMISSION

SS-31229A now TA-42568 Ex Capt Charanjit Singh is granted Territorial Army (Inf) Commission on 19 May 2003 in the rank of Lt under the provision of TA Act Rule 1948. He is also granted 05 yrs 02 months & 23 days seniority wef 26 Feb 1998 in the rank of Lt for his former service in the Regular Army (26.8.82 to 17 Nov 87). By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Capt wef 26.2.2004 under the provision of Para 25(a) and 38(a) of TA Regs 1948 as amended vide SRO 43 dated 11 Feb 2003 for increments of pay & promotion purpose.

SS-36655X now TA-42530 Ex Capt Rajesh Nayak is granted Territorial Army (Inf) commission on 20 Jul 2002 in the rank of Lt under the provision of TA Act Rule 1948. He is also granted 05 yrs 02 months & 27 days seniority wef 23.4.97 in the rank of Lt for his former service in the Regular Army (9.3.96 to 4.6.01). By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Capt wef 23.4.2003 under the provision of Para 25 (a) and 38(a) of TA Regs 1948 as amended vide SRO 43 dated 11 Feb 2003 for increments of pay & promotion purpose.

To be Lt

Jaswant Singh Bhardwaj TA(NT)-1215 AMC(NT) 20 Oct 2002

Vishnu Dutt Bhardwaj TA(NT)-1216 AMC(NT) 20 Oct 2002

ML SHARMA
Under Secy.

No. 407, dated the 20th Jul 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The undermentioned officers of SSC-75 Course have completed their Short Service Commission for six months in the rank of Lt commencing 08 Mar 2003. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years w.e.f. 08 Mar 2003 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended:—

Abhishake Rai (SS-40068K) ASC with seniority next below Lt Mohit Joshi (SS-40067F) INF and Tonsing Songlianthuam (SS-40103F) INF with seniority next below

to Lt Jaideep Singh (SS-40102Y) AC whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 07 Feb 2004.

VIJAY SAHGAL
Lt Col
AMS 8B

CORPS OF SIGNALS

No. 408, dated the 15th July 2004.—The President is pleased to appoint the following persons in MCTE, MHOW to the posts from the dates mentioned against their names, until further orders.

Dr. Brijendra Kumar Joshi as Professor—30 Oct 2003 (F/N)

Sh. Rajesh Mungasaji Bodade as Asstt. Professor—28 Nov 2003 (F/N)

Sh. Sudheer Kumar NV as Asstt Professor—19 Nov 2003 (F/N)

Sh. Ravi Prakash Gupta as Lecturer—30 Oct 2003 (F/N)

Ku Mogana Neelakandan as Lecturer—11 Dec 2003 (F/N)

Sh. Mahipal Singh Chaudhary as Lecturer—30 Jan 2004 (F/N)

Smt. Nidhi Gupta as Lecturer—12 Dec 2003 (F/N)

Sh. Chandrakant Narayanarao Khairnar as Lecturer—18 Dec 2003 (F/N)

2. All the above officers will remain on probation for a period of one year with effect from their date of appointment.

R. CHATURVEDI
Under Secy.

AIR HEADQUARTERS

No. 409, dated the 15th July 2004.—The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Sachdeva, Personal Assistant of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6500—10500/- with effect from 04 Mar 2004 to 30 Jun 2004 or till persons from Select List become available whichever is earlier.

2. The promotion shall be subjected to the following conditions:—

- (a) His appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.
- (b) The officer shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of this promotion granted now nor will this period of such

appointment count towards seniority in the grade of PS.

The President is pleased to appoint Shri MM Singh, Assistant as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 16 Mar 2004 to 24 Aug 2004 or till such time the individual retires or till regular incumbent become available, whichever is earlier.

2. The appointment is made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Admn. Officer

(ARMY BRANCH)

No. 410, dated the 21st July 2004.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

- (a) DS-12079A Capt Mona Bhatia—01.10.2002
- (b) DS-12081X Capt Arun Tanwar—02.11.2002
- (c) DS-12084L Capt Sai Krishna—20.12.2002
- (d) DS-12098L Capt Neha Gupta—04.04.2003

PARAMJIT SINGH
Maj Gen,
Addl. DGDS

(ARMY BRANCH)

No. 411, dated the 16th July 2004.—The President is pleased to make the following appointment/promotion:—

REGULAR ARMY

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar R Thirumangai (JC-226612Y), 06 Mar 2004/01 Mar 2004*

Subedar Abhay Singh (JC-226571A), 11 May 2004/01 May 2004*

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Subedar Vijay Kumar Pandey (JC-255301N), 05 May 2004/01 May 2004*

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Ramotar Yadave (JC-185947Y), 13 Apr 2004/01 Mar 2004*

To be Substantive Subedar Major (Clk)

Subedar Kishore Kumar Gurung (JC-255066A), 05 May 2004/01 May 2004*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Suresh Chand (JC-297699P), 01 Dec 2003

Nb Sub Narendar Prasad (JC-297682F), 24 Mar 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Bhamre Balu Dashrath (JC-297647Y), 29 Mar 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Kamlesh Prasad Singh (JC-297642A), 14 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Rajender Singh (JC-297935L), 01 Feb 2004

Nb Subedar Radhakrishnan N. (JC-298100H), 19 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Makhan Singh (JC-297742L), 02 Apr 2004/08 Feb 2004*

Nb Sub Pita Bash Panda (JC-298344W), 08 Apr 2004/20 Feb 2004*

Nb Sub Rajender Singh (JC-298369H), 08 Apr 2004/20 Feb 2004*

Nb Sub Sanapala Nageswara Rao (JC-297913M), 28 Mar 2004/22 Feb 2004*

Nb Sub Muralidharan Pillai S (JC-298492F), 15 Apr 2004/24 Feb 2004*

Nb Sub Parmodh Singh (JC-297310W), 01 Mar 2004

Nb Sub Subhash Chandra Yadav (JC-297539P), 25 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Hedage Arun Sambhaji (JC-298362Y), 08 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub MD Aziz Pasha (JC-297065Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Om Prakash (JC-297398L), 01 Apr 2004

Nb Sub Sev Singh (JC-297586M), 28 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Munna Prasad (JC-297646W), 21 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Dinesh Prasad (JC-297819H), 01 Apr 2004

Nb Sub Bheemappa Badakar (JC-297717M), 01 Apr 2004

Nb Sub Shri Ram Singh Yadav (JC-297829M), 04 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Bhoop Singh (JC-297910Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Naresh Prasad Singh (JC-298051L), 02 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Shyam Lal Jatav (JC-298282F), 20 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Puran Singh (JC-297846N), 01 May 2004

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Ram Niwas (JC-297446A), 01 Apr 2004

Nb Sub Mohar Singh (JC-297448L), 01 May 2004

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Mithlesh Kumar Nigam (JC-298170F), 23 Feb 2004/14 Jan 2004*

Nb Sub Ganesh Das (JC-298174X), 17 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Sant Singh (JC-298166Y), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub R Vinodhan (JC-298244L), 13 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Raja Ram Yadav (JC-298164N), 06 Apr 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Raja Mani S (JC-298169M), 01 Apr 2004

Nb Sub Ieluri Venkata Rami Reddy (JC-298200N), 01 Apr 2004

Nb Sub E Seenichamy (JC-298272X), 01 Apr 2004

Nb Sub Ramendra Basak (JC-298567N), 03 May 2004/01 May 2004*

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Birender Kumar (JC-296932L), 01 May 2004

*(Gtd ante-date seniority wef)

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

No. 412, dated the 15th July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(INFANTRY)

(THE MAHAR REGIMENT)

To be Subedar

Nb Sub Surjit Singh (JC-568452K), 01 May 2001

Nb Sub Sadanandan PK (JC-568615M), 21 May 2001

Nb Sub Mithileshwar Kumar Singh (JC-568496F), 22 Aug 2001@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 July 2001)

Nb Sub Patil Babasaheb Shivagonda (JC-568810K), 22 Nov 2001@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2002)

Nb Sub Bidhi Chand (JC-568756F), 01 Dec 2002@@@
@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 July 2002)

Nb Sub Ram Mani (JC-568925X), 01 Nov 2002#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 July 2002)

Nb Sub Devre Saheb Morotrao (JC-568786Y), 16 Nov 2002##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2002)

Nb Sub Surender Pal (JC-568544W), 11 Nov 2002###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2002)

Nb Sub Fakir Ram (JC-568545Y), 23 Oct 2002\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2002)

Nb Sub Krishan Kumar (JC-568827X), 01 Sep 2002

Nb Sub Rajinder Singh (JC-568853Y), 01 Nov 2002\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2002)

Nb Sub Shekharanand (JC-568669N), 01 Oct 2002

Nb Sub Surender Singh (JC-568777X), 01 Oct 2002

Nb Sub Khaarat Ramesh Dhondiram (JC-568840F), 01 Oct 2002

Nb Sub Pratap Nath (JC-568844X), 01 Oct 2002

Nb Sub Roshan Lal Verma (JC-568896N), 01 Oct 2002

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-568670H), 01 Nov 2002

Nb Sub Hakumat Singh (JC-568671L), 01 Nov 2002

Nb Sub Sansar Chand (JC-568678P), 01 Nov 2002

Nb Sub Nirmal Singh (JC-568698H), 09 Dec 2002\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2002)

Nb Sub Chhitar Pal (JC-568726K), 01 Nov 2002

Nb Sub Waryam Singh (JC-568813X), 01 Nov 2002

Nb Sub Dharampal Singh Yadav (JC-568831A), 01 Nov 2002

Nb Sub Shambhu Prasad (JC-568867Y), 03 Nov 2002%

% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2002)

Nb Sub Madhukar Shamrao Bhawaskar (JC-568893A), 01 Nov 2002

Nb Sub Suraj Bhan (JC-568904F), 01 Nov 2002

Nb Sub More Vithal Maruti (JC-568849W), 24 Nov 2002

Nb Sub Tejbhan Singh (JC-568812P), 01 Dec 2002

Nb Sub Mhetar Nand Govinda (JC-568850L), 01 Dec 2002

- Nb Sub Nachhatter Singh (JC-568872K), 01 Dec 2002
 Nb Sub Waghmare Rajendra Tukaram (JC-568909A) 16 Dec 2002%%
 %% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2002)
- Nb Sub Dal Singh Thond Singh Rajput (JC-568967K), 01 Dec 2002
 Nb Sub Sale Subhash Dattu (JC-568951Y) 01 Dec 2002
 Nb Sub Kamble Subhash Limbaji (JC-568981W) 01 Dec 2002
 Nb Sub Shinde Ramesh Narayan (JC-568892X) 10 Jan 2003%%
 %% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Dec 2002).
- Nb Sub Thakur Singh Negi (JC-568928L), 08 Dec 2002
 Nb Sub Surjit Singh (JC-568926K), 15 Dec 2002
 Nb Sub Lal Sahab (JC-568873M), 17 Dec 2002
 Nb Sub Dayanidhi Tiwari (JC-568766L), 05 Jan 2003&
 & (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2003).
- Nb Sub Rajesh Kumar Singh (JC-568791K), 01 Jan 2003
 Nb Sub Narsi Ram Gurjar (JC-568815H), 01 Jan 2003
 Nb Sub Baba Namdeo Bhosle (JC-568846H), 25 Jan 2003%%
 %% (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2003).
- Nb Sub Narain Dass (JC-568878L), 01 Jan 2003
 Nb Sub Sher Singh (JC-569002Y), 15 July 2003&
 & (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2003).
- Nb Sub Kamble Ganapati Shripati (JC-568927H), 10 Jan 2003&&
 && (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2003).
- Nb Sub Chandi Prasad (JC-568765H), 10 Jan 2003*
 * (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 03 Jan 2003).
- Nb Sub Amar Nath (JC-568597P), 18 Feb 2003**
 ** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Manohar Datt (JC-568795A), 10 Feb 2003****
 **** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Bhanu Pratap Singh (JC-568809P), 13 Feb 2003+
 + (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Vishnu Budha Dongre (JC-568851N), 01 Feb 2003
 Nb Sub Kishan Lal (JC-568854F), 01 Feb 2003
 Nb Sub Raste Shivaji Vithoba (JC-568895L), 01 Apr 2003++
 ++ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Rajaram Prabhu Kamble (JC-568897W), 26 March 2003+++
 +++ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Sat Paul (JC-568880H), 01 Feb 2003
 Nb Sub Bahadur Singh (JC-568900L), 01 Feb 2003
 Nb Sub Vishram Yadav (JC-568905K), 06 Feb 2003@
 @ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Betal Singh (JC-568906M), 25 Feb 2003#
 # (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Brham Dass (JC-568923M), 01 Feb 2003
 Nb Sub Sohan Singh (JC-568910P), 06 Apr 2003+++
 +++ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2003).
- Nb Sub Jasbir Singh (JC-568930H), 01 Feb 2003
 Nb Sub Harbans Singh (JC-568931L), 01 Feb 2003
 Nb Sub Surjit Ram (JC-568877H), 14 Feb 2003
 Nb Sub Vijender Singh (JC-568899F), 11 Mar 2003&&
 && (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 14 Feb 2003).
- Nb Sub Satwant Singh (JC-568672N), 21 Feb 2003
 Nb Sub Ishwar Singh (JC-568934Y), 01 Mar 2003
 Nb Sub Barve Balkrushna Hari (JC-568852W), 20 Mar 2003@
 @ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).
- Nb Sub Bijendra Kumar (JC-568876A), 01 Mar 2003
 Nb Sub Desh Raj Yadav (JC-568911X), 12 Mar 2003@@
 @@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).
- Nb Sub Alok Kumar Biswas (JC-568912A), 27 Mar 2003&
 & (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).
- Nb Sub Krishan Kumar Sharma (JC-568913H), 01 Mar 2003
 Nb Sub Madan Lal (JC-568914L), 26 Mar 2003#
 # (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).

Nb Sub Zacharia Kerketta (JC-568917Y), 01 Mar 2003

Nb Sub Dinesh Kumar Singh (JC-568916W), 01 Mar 2003

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-568949F), 01 Mar 2003

Nb Sub Govind Singh (JC-568918F), 13 May 2003##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).

Nb Sub Bahadur Singh (JC-568929N), 13 May 2003\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).

Nb Sub Durgpal Singh (JC-568958H), 12 Aug 2003\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).

Nb Sub Birendra Pratap Singh (JC-568973X), 10 Oct 2003*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2003).

Nb Sub Vijay Sonaji Rokade (JC-568674Y), 06 Oct 2003\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 17 Mar 2003).

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Mohan Lal (No. 2878220K now JC-469422K), 11 Sep 2003

Hav Lal Singh (No. 2879071N now JC-469423M), 11 Sep 2003

Hav Rotan Singh (No. 2879739M now JC-469424P), 11 Sep 2003

Hav Nand Singh (No. 2877148M now JC-469425X), 21 Sep 2003

Hav Bijender Singh (No. 2888122X now JC-469426A), 01 Nov 2003

Hav Bhagwan Singh (No. 2878672M now JC-469427H), 01 Nov 2003

Hav Juma Khan (No. 2873379L now JC-469428L), 01 Nov 2003

Hav Suresh Singh Tomar (No. 2877560A now JC-469429N), 08 Nov 2003

Hav Vikram Singh Shekhawat (No. 2879603H now JC-469430H), 14 Nov 2003

Hav Jai Bhagwan (No. 2873726Y now JC-469431L), 01 Dec 2003

Hav Ajai Pal Singh (No. 2875972H now JC-469432N), 01 Dec 2003

Hav Deshrath Singh (No. 2877754H now JC-469433W), 01 Dec 2003

Hav Mukesh Kumar (No. 2877598K now JC-469434Y), 19 Dec 2003/S-12 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th Dec 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Singh (No. 2874952H now JC-469435F), 19 Dec 2003

Hav Sajjan Singh (No. 2876068H now JC-469436K), 26 Dec 2003

Hav Ram Chander Singh (No. 2873973M now JC-469437M), 01 Jan 2004

Hav Sawant Singh Rathore (No. 2878223X now JC-469438P), 01 Jan 2004

Hav Ramesh (No. 2875946F now JC-469439X), 01 Jan 2004

Hav Ganesh Singh (No. 2882688P now JC-469440M), 01 Jan 2004

Hav Sawai Singh (No. 2879391H now JC-469441P), 25 Jan 2004

Hav Bhanwar Singh (No. 2876060W now JC-469442X), 01 Feb 2004

Hav Arjun Ram (No. 2880467K now JC-469443A), 01 Feb 2004

Hav Loon Singh (No. 2877839Y now JC-469444H), 01 Feb 2004

Hav Om Premi (No. 2876467M now JC-469445L), 01 Mar 2004

Hav Shri Pal Singh (No. 2880012N now JC-469446N), 01 Mar 2004

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Kulwant Singh (No. 4462731H now JC-509080M), 27 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Amarjit Singh (No. 4459428W now JC-509081P), 27 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jagjit Singh (No. 4463698H now JC-509084H), 01 Oct 2003

Hav Inderjit Singh (No. 4465060P now JC-509085L), 01 Oct 2003

Hav Hardev Singh (No. 4462116L now JC-509087W),
20 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Amarjit Singh (No. 4466173K now JC-509088Y),
28 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Hardip Singh (No. 4466557Y now JC-509089F),
28 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balwinder Singh (No. 4465173X now JC-509091Y),
01 Feb 2004*

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Ghanshyam Singh (No. 4464481L now JC-509082X), 01 Oct 2003

Hav (Clk) Bhagirathi Nayak (No. 4464486K now JC-509083A), 01 Oct 2003

Hav (Clk) Kaptan Singh (No. 4468969Y now JC-509086N), 10 Nov 2003

Hav (Clk) Wazir Singh (No. 4464983N now JC-509090W), 01 Feb 2004

Hav (Clk) Rajendra Kishor Singh (No. 4465029H now JC-509092F), 01 Mar 2004

To be Nb Sub (GD)

Hav Pirthi Singh (No. 4465865M now JC-509112K), 18 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No. 4467466F now JC-509113M),
05 May 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmeet Singh (No. 4467690N now JC-509114P),
12 April 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 27 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Baljit Singh Singh (No. 4463274M now JC-509115X), 01 Jan 2004

Hav Jarnail Singh (No. 4464004K now JC-509116A),
16 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhwant Singh (No. 4466753Y now JC-509117H),
01 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Tarlochan Singh (No. 4464477H now JC-509118L),
01 Apr 2004

Hav Jagtar Singh (No. 4466727X now JC-509119N),
01 Apr 2004

Hav Ranjit Singh (No. 4464723H now JC-509120H),
04 Apr 2004

Hav Shamsheer Singh (No. 4465018W now JC-509121L),
09 Apr 2004

Hav Charanjit Singh (No. 4460975X now JC-509122N),
16 Apr 2004

Hav Rachhpal Singh (No. 4464346X now JC-509123W),
17 Apr 2004

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Satheendran Pillai B (No. 4464499F now JC-509111F), 01 Oct 2003

JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sukhdev Singh (No. 9084983W now JC-593161P),
15 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Pira Ram (No. 9085135K now JC-593162X), 18 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Girdhari Lal (No. 9085440W now JC-593163A),
15 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Harnam Singh (No. 9085228Y now JC-593164H),
15 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Mohd Ajmal Khan (No. 9085689H now JC-593165L), 24 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Som Nath (No. 9085900M now JC-593166W), 18 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Zaffar Iqbal (No. 9086936X now IC-593167W), 17 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Sham Lal (No. 9084932H now JC-593168Y), 23 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004).

Hav Lachhman Dass, VrC (No. 9086074K now JC-593169F), 15 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004).

Hav Sham Lal (No. 9084175Y now JC-593152N), 28 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Surjeet Singh (No. 9087464Y now JC-593153W), 01 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Prem Nath (No. 9083973A now JC-593155F), 27 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003).

Hav Mohd Ishaq (No. 9084065K now JC-593156K), 14 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Surinder Kumar (No. 9086579A now JC-593157M), 14 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Ramesh Lal (No. 9084104X now JC-593158P), 16 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Chhillo Ram (No. 9084247X now JC-593159X), 25 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Madan Singh (No. 9085092A now JC-593160M), 15 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Pritam Singh (No. 9085160H now JC-593170W), 31 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004).

Hav Angreze Singh (No. 9085205X now JC-593171Y), 20 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004).

Hav Shail Singh (No. 9086121W now JC-593172F), 09 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Yash Paul (No. 9087473A now JC-593173K), 08 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Sohan Lal (No. 9088265X now JC-593174M), 08 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Jagdish Raj (No. 9088591A now JC-593175P), 08 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 9089140M now JC-593176X), 08 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Prem Nath (No. 9085666F now JC-593177A), 12 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 2004).

Hav Darshan Lal (No. 9084957F now JC-593188M), 12 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Rattan Singh (No. 9086457W now JC-593189P), 10 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Rattan Lal (No. 9084656L now JC-593190K), 26 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Prithvi Raj (No. 9084061N now JC-593191M), 06 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jan 2004).

Hav Raghbir Singh (No. 9086932F now JC-593192P), 06 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Feb 2004).

Hav Raj Kumar (No. 9086531M now JC-593193X), 08 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004).

Hav Lal Chand (No. 9086234Y now JC-593194A), 08 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004).

Hav Subern Singh (No. 9084349N now JC-593180A), 26 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Dec 2003).

Hav Mohd Iqbal Khan (No. 9087802L now JC-593181H), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Sagar Singh (No. 9086286P now JC-593182L), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Parshotam Kumar (No. 9085351X now JC-593183N), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Jaswant Singh (No. 9085799X now JC-593184W), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Ghara Lal (No. 9086829W now JC-593185Y), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Ghulam Hussain (No. 9085468W now JC-593186F), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Romesh Kumar (No. 9086192X now JC-593187K), 09 Mar 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2003).

Hav Mohd Farooq (No. 9086057K now JC-593147H), 08 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2004).

Hav Lal Din (No. 9086560F now JC-593148L), 25 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Mahmood Ahmed (No. 9086100A now JC-593149N), 25 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Rajender Kumar (No. 9087349Y now JC-593150H), 11 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

Hav Ashaq Hussain Raina (No. 9086624F now JC-593151L), 11 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2004).

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Satyavir Singh (No. 9088160N now JC-593154Y), 01 Mar 2004

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav A Chellapandy (No. 2591784M now JC-439371M), 01 Nov 2003

Hav G Perumal (No. 2585878N now JC-439372P), 01 Nov 2003

Hav Biju D (No. 2597123H now JC-439366F), 30 Nov 2003

Hav Natarajan M (No. 2581582X now JC-439382Y), 02 Feb 2004

Hav Haridasan K (No. 2582703A now JC-439378W), 01 Mar 2004

Hav K Periapandi (No. 2584126X now JC-439377N), 01 Mar 2004

Hav Pandira Poina Polu Raju (No. 2584654F now JC-439380N), 01 Apr 2004

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Tej Bahadur Gurung (No. 4353315H now JC-548916P), 09 Feb 2004/01 Oct 2003

Hav Nani Sinha (No. 4352657K now JC-548927F), 01 Nov 2003

Hav Powel Chandra Borah (No. 4353369K now JC-548928K); 01 Jan 2004

Hav Ratneswar Daimary (No. 4353826M now JC-548929M), 15 Jan 2004

Hav Bipul Chandra Borah (No. 4355814W now JC-548931K), 01 Feb 2004

Hav Krishna Lama (No. 4358541K now JC-548940L), 13 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Thanu Ram Bora (No. 4355653Y now JC-548941N), 13 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Hotovi Shikhu (No. 4355181N now JC-588942W), 13 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Krishna Aryal (No. 4355889N now JC-548943Y), 08 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Jou Bahadur Gurung (No. 4356205Y now JC-548944F), 08 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Harsing Basumatary (No. 4353703A now JC-548936H), 01 Dec 2003

Hav Kamaleswar Wary (No. 4353006A now JC-548937L), 01 Oct 2003

Hav Hentinlien Vaiphei (No. 4355064A now JC-548938N), 01 Oct 2003

Hav H Remmawia (No. 4350897W now JC-548932M), 01 Feb 2004

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Sone Lal Pandey (No. 2979806F now JC-479354P), 01 Feb 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Prem Singh (No. 2984007P now JC-479355X), 01 Feb 2004

Hav Clk Ram Narain Singh (No. 2983664M now JC-479356A), 01 Mar 2004

Hav Clk Rajender Kumar (No. 2983841F now JC-479357H), 01 Mar 2004

To be Nb Sub

Hav Berander Pal Singh (No. 2984259F now JC-479358L), 27 Jan 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Singh (No. 2982742M now JC-479359N), 01 Aug 2003

Hav Bhagwan Singh (No. 2982676P now JC-479360H), 02 Feb 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Balvinder Singh (No. 2983647M now JC-479361L), 20 Oct 2003*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (No. 2985787X now JC-479362N), 01 Nov 2003

Hav Raghuraj Singh (No. 2985717Y now JC-479363W), 27 Nov 2003*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Chand Gujar (No. 2984422W now JC-479364Y), 24 Jan 2004*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar Singh (No. 2981507F now JC-479365F), 01 Dec 2003

Hav Shiv Charan (No. 2983073L now JC-479366K), 01 Jan 2004

Hav Amar Singh (No. 2978236K now JC-479367M), 29 Jan 2004

Hav Rajeshwar Singh (No. 2977782K now JC-479368P), 30 Jan 2004

Hav Ashok Kumar (No. 2982210M now JC-479369X), 30 Jan 2004

Hav Rajbir Singh (No. 2982355X now JC-479370M), 30 Jan 2004

Hav Hari Shanker (No. 2980945X now JC-479371P), 01 Feb 2004

Hav Mohd Shakil Naqvi (No. 2983588L now JC-479372X), 01 Feb 2004

Hav Mahipal Singh (No. 2980746K now JC-479373A), 01 Feb 2004

Hav Asim Kumar Panda (No. 2983138N now JC-479374H), 01 Feb 2004

Hav Guman Singh (No. 2980536K now JC-479375L), 01 Feb 2004

Hav Harkesh Singh (No. 2982950F now JC-479376N), 01 Feb 2004

Hav Arun Kumar Singh (No. 2982838P now JC-479377W), 01 Feb 2004

Hav Gokul Ram (No. 2986469A now JC-479378Y), 01 Mar 2004

Hav Dharendra Nath Ray (No. 2982343H now JC-479379F), 01 Apr 2004

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Bajrang Singh (No. 2671297A now JC-449587F),
01 Feb 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2002
without effect on pay and allces).

Hav Prem Singh (No. 2674446N now JC-449588K), 11
Feb 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Amin Chand (No. 2673382F now JC-449589M), 08
Nov 2003

Hav Jagdish Raj (No. 2670946N now JC-449590F), 21
Nov 2003

Hav Ramesh Kumar (No. 2672704K now JC-449591K),
16 Feb 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Surinder Singh SM (No. 2671208W now JC-
449592M), 01 Dec 2003

Hav Liyakat Ali (No. 2675882X now JC-449593P), 10
Dec 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Raghuvir Singh (No. 2673836K now JC-449594X),
01 Dec 2003

Hav Berma (No. 2673759A now JC-449595A), 01 Dec
2003

Hav Suraj Parkash Verma (No. 2680764N now JC-
449596H), 01 Dec 2003

Hav Rajender Singh (No. 2676249K now JC-449597L),
01 Dec 2003

Hav Jeewan Khan (No. 2675467W now JC-449598N),
01 Dec 2003

Hav Kawar Singh (No. 2674392X now JC-449599W),
01 Dec 2003

Hav Heem Raj (No. 2673986A now JC-449600A), 01
Dec 2003

Hav Dharambir (No. 2686082Y now JC-449601H), 01
Dec 2003

Hav Khima Kathat (No. 2676831W now JC-449602L),
01 Dec 2003

Hav Subhash Chander (No. 2672282K now JC-
449603N), 01 Dec 2003

Hav Shripal Singh Senger (No. 2674214P now JC-
449604W), 01 Dec 2003

Hav Madan Lal Pathania (No. 2674073L now JC-
449605Y), 01 Dec 2003

To be Nb Sub

Hav Jagdish Chand Sharma (No. 2674113F now JC-
4559606F), 01 Dec 2003

Hav Hakam Chand (No. 2672962K now JC-449607K),
06 Dec 2003

Hav Shimbu Dayal Rawat (No. 2679729Y now JC-
449608M), 25 Dec 2003

Hav Lila Ram Khatana (No. 2679894K now JC-
449609P), 25 Dec 2003

Hav Amar Singh (No. 2675940W now JC-449610K),
30 Dec 2003

Hav Ram Babu Singh (No. 2676745L now JC-
449611M), 30 Dec 2003

Hav Narender Singh Kushwah (No. 2678825F now JC-
449612P), 30 Dec 2003

Hav Rajvir Singh (No. 2673247N now JC-449613X),
01 Jan 2004

Hav Surender Singh (No. 2672711A now JC-449614A),
14 Feb 2004

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Rai Singh (No. 2673435P now JC-449615H), 01
Jan 2004

To be Nb Sub (Cik)

Hav/Cik Deep Chand (No. 2674420Y now JC-449616L),
01 Apr 2004

Hav/Cik Satendra Singh Negi (No. 2675147F now JC-
449617N), 01 Apr 2004

To be Nb Sub

Hav Hamid Khan (No. 2672431M now JC-449554M),
01 Dec 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Oct 2002
without effect on pay and allces).

Hav Mir Khan (No. 2672732N now JC-449555Y), 01
Oct 2003

Hav Dhyam Singh (No. 2674527N now JC-449556F),
01 Oct 2003

Hav Din Dayal Sharma (No. 2673600P now JC-
449557K), 29 Oct 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003
without effect on pay and allces).

Hav Bajeer Singh (No. 2679679Y now JC-449558M),
01 Oct 2003

Hav Harish Kumar (No. 2671203X now JC-449559P),
01 Oct 2003

Hav Ram Niwas (No. 2676400K now JC-449560K),
01 Oct 2003

Hav Ashok Kumr (No. 2684177A now JC-449561M),
01 Oct 2003

Hav Surat Singh (No. 2673027K now JC-449562P), 01
Oct 2003

Hav Shesh Mani (No. 2683853X now JC-449563X), 01
Oct 2003

Hav Sanwar Mal (No. 2673959W now JC-449564A),
01 Oct 2003

Hav Kusal Singh (No. 2676256A now JC-449565H), 01
Oct 2003

Hav Odedra Deva Raja (No. 2681396W now JC-
449566L), 23 Oct 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003
without effect on pay and allces).

Hav Lala Ram Meena (No. 2679180W now JC-
449567N), 02 Oct 2003

Hav Mangi Lal Meena (No. 2679869L now JC-
449568W), 02 Oct 2003

Hav Panchu Singh Meena (No. 2680437H now JC-
449569Y), 02 Oct 2003

Hav Kan Singh (No. 2675272L now JC-449570N), 21
Oct 2003

Hav Ram Prakash Bathela (No. 2673308A now JC-
449571W), 01 Nov 2003

Hav Balwan Singh (No. 2672119K now JC-449572Y),
01 Nov 2003

Hav Bhim Singh (No. 2671548Y now JC-449573F), 01
Nov 2003

Hav Virendra Singh (No. 2680977F now JC-449574K),
01 Nov 2003

Hav Birendra Singh (No. 8031648P now JC-449575M),
01 Nov 2003

Hav Unoos Ali (No. 2672971L now JC-449576P), 01
Nov 2003

Hav Shiv Lal (No. 2676942N now JC-449577X), 01
Nov 2003

Hav Randhir Singh (No. 2673463F now JC-449578A),
28 Nov 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003
without effect on pay and allces).

Hav Hawa Singh (No. 2673578P now JC-449579H), 01
Nov 2003

Hav Ashok Kumar (No. 2672507F now JC-449580X),
08 Nov 2003

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Romesh Singh (No. 2678477N now JC-449581A),
01 Nov 2003

Hav Dev Raj (No. 2674141N now JC-449582H), 01
Nov 2003

Hav Sirtaj Ahmed (No. 2674816H now JC-449583L),
04 Nov 2003

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Sube Singh (No. 2673968X now JC-449584N),
01 Feb 2004

Hav/Clk Devendra Singh Bhadoria (No. 2674217H now
JC-449585W), 01 Mar 2004

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Mane Dadarao Manik (No. 2782539M now JC-
459274W), 18 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Lohar Govind Bapu (No. 2782662L now JC-
459275Y), 17 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Kuldeep Singh (No. 3983591F now JC-459276F),
17 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Gawali Parashram Koondiba (No. 2774170X now
JC-459277K), 10 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Kumar Patil Baramu Subarao (No. 2778962P now
JC-459279P), 01 Mar 2004

Hav Shashi Kumar KM (No. 2783491W now JC-
459280K), 01 Mar 2004

Hav Matukade Suresh Khandu (No. 2783177H now
JC-459281M), 01 Mar 2004

Hav Pise Vijaykumar Gajanan (No. 2783174L now JC-
459282P), 01 Mar 2004

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Tribhuwan Singh (No. 2780917F now JC-
459278M), 01 Mar 2004

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar (No. 3982306L now JC-519817K),
25 Jan 2004

Hav Chet Ram (No. 3980096X now JC-519818M), 01
Feb 2004

Hav Balram Singh Guleria (No. 3981666P now JC-
519819P), 01 Feb 2004

Hav Jeet Ram (No. 3981261K now JC-519821M), 06
Feb 2004

Hav Ramesh Kumar (No. 3981261K now JC-519821M),
06 Feb 2004

Hav Suresh Kumar (No. 3984618A now JC-519822P),
21 Feb 2004

Hav Shakti Singh (No. 3980463Y now JC-519823X),
26 Feb 2004

Hav Raj Kumar Sharma (No. 3988139W now JC-
519824A), 01 Mar 2004

To be Nb Sub Clik

Hav/Clik Prakash Chand Sharma (No. 3983499H now
JC-519815Y), 14 Jan 2004

Hav/Clik Darshan Singh (No. 3979885X now JC-
519816F), 01 Mar 2004

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD/Clik(GD))

Hav Ram Ashis Mishra (No. 4258612L now JC-
559240X), 10 Jan 2004/01 July 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2003
without effect on pay and allces).

Hav Iswar Nayak (No. 4260733L now JC-559241P),
17 Jan 2004/01 October 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003
without effect on pay and allces).

Hav Kunja Behari Naik (No. 4261098X now JC-
559243L), 03 Mar 2004/08 Oct 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Oct 2003
without effect on pay and allces).

Hav Cyprian Tirkey (No. 4261267N now JC-559244N),
03 Nov 2004/01 Nov 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Bhikhari Singh (No. 4258601Y now JC-559245W),
25 Jan 2004/01 Dec 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Kumud Kisan (No. 4264935K now JC-559246Y),
20 Jan 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Jag Mohan Singh (No. 4259715W now JC-
559247F), 01 Jan 2004

Hav Arjun Prasad Yadav (No. 4259677L now JC-
559248K), 07 Feb 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Surendra Kumar Bhoi (No. 4264961L now JC-
559249M), 16 Jan 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Jhimilal Rai (No. 4263029A now JC-559250F),
23 Feb 2004/22 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Mahendra Kumar (No. 4259442Y now JC-
559251K), 30 Jan

Hav Harendra Chaudhari (No. 4249900K now JC-
559252M), 29 Feb 2004/27 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Damu Purty (No. 4264560W now JC-559253P),
18 Feb 2004/01 Sep 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003
without effect on pay and allces).

Hav Harish Chandra Singh (No. 4263239A now JC-
559254X), 23 Feb 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Kunja Bihari Kisan (No. 4261525H now JC-
559255A), 14 Feb 2004/15 Nov 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 2003
without effect on pay and allces).

Hav Shiv Shankar Yadava (No. 4262287N now JC-
559256H), 15 Feb 2004/07 Dec 2003 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2003
without effect on pay and allces).

Hav Rameshwar Prasad (No. 4257824k now JC-
559257L), 15 Feb 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Pratap Chandra Pradhan (No. 4261311M now JC-
559258N), 01 Jan 2004

Hav Angresh Barik (No. 4264962N now JC-559259W),
22 Feb 2004/01 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav Sanika Munda (No. 4263555Y now JC-559260L),
23 Feb 2004/07 Jan 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jan 2004
without effect on pay and allces).

Hav/Clk Gangadhar Mohanty (No. 4264154W now JC-
559261N), 01 Feb 2004

Hav Chakradhar Mehta (No. 4261655L now JC-
559262W), 08 Mar 2004/01 Mar 2004 (seniority)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004
without effect on pay and allces).

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub

Nb Sub Vijay Singh (JC-529035F), 01 Aug 2002
Nb Sub Mahabir Singh (JC-529079Y), 01 Sep 2002
Nb Sub Balbir Singh (JC-529098K), 01 Dec 2002
Nb Sub Himmat Singh, SM (JC-529069P), 01 Jan 2003
Nb Sub Balwant Singh (JC-529114W), 01 Jan 2003
Nb Sub Bharat Lal (JC-529042X), 01 Feb 2003
Nb Sub Gabar Singh (JC-529130N), 01 Mar 2003
Nb Sub Brahma Nand (JC-529092H), 01 Apr 2003
Nb Sub Bhim Singh, SM (JC-529165K), 01 Apr 2003
Nb Sub Chandan Singh (JC-529166M), 01 Apr 2003
Nb Sub Dalbir Singh (JC-529131N), 13 Apr 2003
Nb Sub Padam Singh (JC-528962H), 01 Jun 2003
Nb Sub Tajbar Singh (JC-528885Y), 01 Jul 2003
Nb Sub Jaswant Singh (JC-528921Y), 01 Jul 2003
Nb Sub Pramod Prasad (JC-528968K), 01 Jul 2003
Nb Sub Yashpal Singh (JC-529104N), 01 Jul 2003
Nb Sub Mahendra Singh (JC-529167P), 01 Jul 2003
Nb Sub Jagat Singh (JC-528904Y), 01 Aug 2003
Nb Sub Mangal Singh (JC-528924M), 01 Aug 2003
Nb Sub Dashrath Singh (JC-528945H), 01 Aug 2003
Nb Sub Kunwar Singh (JC-528949Y), 01 Aug 2003
Nb Sub Rameah Chand Singh (JC-529012A), 01 Aug
2003
Nb Sub Gyan Singh (JC-529006M), 01 Aug 2003
Nb Sub Birendra Singh (JC-529143L), 01 Aug 2003

Nb Sub Govardhan Prasad (JC-529168X), 01 Aug 2003
Nb Sub Rajbar Singh (JC-529171X), 01 Aug 2003
Nb Sub Balwant Singh (JC-529144N), 01 Sep 2003.
Nb Sub Mahendra Singh (JC-529206H), 01 Sep 2003
Nb Sub Surender Prasad Sunderiyal (JC-529146Y), 01
Sep 2003
Nb Sub Pratap Singh (JC-529036K), 14 Sep 2003
Nb Sub Birendra Singh (JC-528874M), 01 Oct 2003
Nb Sub Bhupendra Singh (JC-529054M), 01 Oct 2003
Nb Sub Anand Singh (JC-529056X), 01 Oct 2003
Nb Sub Darmayan Singh (JC-529089H), 01 Oct 2003
Nb Sub Gita Ram (JC-529093L), 01 Oct 2003
Nb Sub Goverdhan Prasad (JC-529135M), 01 Oct 2003
Nb Sub Nand Kishor (JC-529231F), 01 Oct 2003
Nb Sub Manbar Singh (JC-529235X), 01 Oct 2003
Nb Sub Jaman Singh (JC-529253A), 01 Oct 2003
Nb Sub Chandan Singh (JC-529004F), 01 Nov 2003
Nb Sub Raj Kishor Singh (JC-529005K), 01 Nov 2003
Nb Sub Dinesh Singh (JC-529094N), 01 Nov 2003
Nb Sub Rajender Singh (JC-529096Y), 01 Nov 2003
Nb Sub Brij Mohan Singh (JC-529110A), 01 Nov 2003
Nb Sub Digamber Singh (JC-529145W), 01 Nov 2003
Nb Sub Chandi Prasad (JC-529211N), 01 Nov 2003
Nb Sub Soban Singh, SM (JC-529116F), 24 Nov 2003
Nb Sub Kalyan Singh (JC-528958H), 01 Dec 2003
Nb Sub Jaswant Singh (JC-529102F), 01 Dec 2003
Nb Sub Narendra Singh (JC-529127N), 01 Dec 2003
Nb Sub Harendra Singh (JC-529128W), 01 Dec 2003
Nb Sub Mahabir Singh (JC-529141A), 01 Dec 2003
Nb Sub Gaje Singh (JC-528960X), 11 Dec 2003
Nb Sub Dalbir Singh (JC-529061H), 14 Dec 2003

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Brij Mohan (No. 4062576Y now JC-529491M), 07
Dec 2003/01 Aug 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2003 without effect on pay and allowances).

Hav Surat Singh (No. 4062700P now JC-529492P), 07
Dec 2003/01 Aug 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Dalvir Singh (No. 4063025A now JC-529493X), 08 Jan 2004/01 Aug 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Pritam Singh Rawat (No. 4062806F now JC-529494A), 07 Dec 2003/01 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Singh Rawat (No. 4060838L now JC-52949511), 07 Jan 2003/01 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Narayan Singh Panwar (No. 4061511Y now JC-529496L), 25 Sep 2003

Hav Gobind Singh (No. 4062697A now JC-529497N), 07 Jan 2004/30 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kalyan Singh (No. 4059432L now JC-529498W), 01 Oct 2003

Hav Kanha Nand (No. 4063668X now JC-529499Y), 14 Jan 2004/01 Oct 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chandra (No. 4063300P now JC-529500H), 12 Oct 2003

Hav Pushkar Singh (No. 4067040M now JC-529501L), 01 Nov 2003

Hav Bharat Singh Chauhan (No. 2884269W now JC-529502N), 03 Dec 2003/01 Nov 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sripal Singh (No. 4061629A now JC-529503W), 01 Nov 2003

Hav Mahabir Singh (No. 4061325H now JC-529504Y), 07 Jan 2004/08 Nov 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Daresh Prasad (No. 4061000P now JC-529505F), 24 Nov 2003

Hav Prem Singh (No. 4061940A now JC-529506K), 07 Jan 2004/30 Nov 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Shatrughan Singh (No. 4061297F now JC-529507M), 01 Dec 2003

Hav Pratap Singh (No. 4063008A now JC-529508P), 09 Dec 2003

Hav Rattan Singh (No. 4064194N now JC-529509X), 01 Jan 2004

Hav Yatendra Singh (No. 4062180P now JC-529510M), 01 Jan 2004

Hav Soban Singh (No. 4061906A now JC-529511P), 01 Jan 2004

Hav Chandra Singh, SM (No. 4064933P now JC-529512X), 01 Jan 2004

Hav Ram Singh (No. 4066354F now JC-529513A), 01 Jan 2004

Hav Sugrib Chand (No. 4061200L now JC-529528H), 27 Feb 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Mohan (No. 4063910F now JC-529529L), 01 Jan 2004

Hav Birender Singh (No. 4061754K now JC-529530A), 01 Jan 2004

Hav Surendra Singh (No. 4063329X now JC-529531H), 01 Jan 2004

Hav Mohan Singh Rawat (No. 4066132M now JC-529532L), 01 Jan 2004

Hav Brij Mohan Singh (No. 4067918L now JC-529533N), 01 Jan 2004

Hav Pratap Singh (No. 4061382K now JC-529534W), 01 Jan 2004

Hav Barinder Singh (No. 4062742F now JC-529535Y), 01 Jan 2004

Hav Mahabir Singh (No. 4063070M now JC-529536F), 01 Jan 2004

Hav Uttam Singh (No. 4061046X now JC-529537K), 01 Jan 2004

Hav Pratap Singh Rawat (No. 4065300N now JC-529538M), 01 Jan 2004

Hav Digamber Singh (No. 4062024L now JC-529539P), 01 Jan 2004

Hav Kewal Singh (No. 4061525Y now JC-529540K), 01 Jan 2004

Hav Chhota Lal (No. 4063204A now JC-529541M), 01 Jan 2004

Hav Narendra Singh (No. 4067385N now JC-529556P), 27 Feb 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Karan Singh (No. 4062389A now JC-529557X), 16 Mar 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupal Singh (No. 4062499P now JC-529558A), 16 Mar 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Chander (No. 4062834N now JC-529559H), 16 Mar 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kushi Ram (No. 4064434A now JC-529560X), 18 Mar 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pan Singh (No. 4061460W now JC-529561A), 01 Jan 2004

Hav Kundan Singh (No. 4063140A now JC-529562H), 24 Jan 2004

Hav Tajender Singh (No. 4063885N now JC-529563L), 24 Jan 2004*

Hav Mastan Singh (No. 4065547P now JC-529564N), 16 Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Suresha Nand (No. 4064927F now JC-529565W), 16 Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jot Singh Panwar (No. 4065200H now JC-529566Y), 18 Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dalbir Singh (No. 4066601K now JC-529567F), 01 Feb 2004

Hav Dinesh Chander (No. 4063899N now JC-529568K), 01 Feb 2004

Hav Pushkar Singh (No. 4061669F now JC-529569M), 05 Feb 2004

Hav Chander Singh (No. 4063928X now JC-529570F), 08 Feb 2004

Hav Darban Singh (No. 4062001K now JC-529571K), 01 Mar 2004

Hav Narendra Singh (No. 4061354X now JC-529572M), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdamba Prasad (No. 4062438X now JC-529573P), 01 Mar 2004

Hav Bhagwan Singh (No. 4061154F now JC-529574M), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pushkar Singh (No. 4061345W now JC-529575A), 01 Mar 2004

Hav Bimal Singh (No. 4062214X now JC-529576H), 01 Mar 2004

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Prithavi Singh Jakhar (No. 2879112M now JC-469447W), 11 Sep 2003

Hav Jagdish Prasad (No. 2878208H now JC-469448Y), 01 Nov 2003

Hav Shankar Singh Khangarot (No. 2877294M now JC-469449F), 26 Feb 2004/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Anand Singh (No. 2876869K now JC-469450W), 28 Feb 2004/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sohan Singh (No. 2879414Y now JC-469451Y), 01 Dec 2003

Hav Rambir (No. 2884142N now JC-469452F), 01 Dec 2003

Hav Girdhari Lal (No. 2877711N now JC-469453K), 12 Feb 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Singh (No. 2877855W now JC-469454M), 21 Jan 2004

Hav Shakti Prakash Singh Bhadaurea (No. 2877656H now JC-469455P), 21 Jan 2004

Hav Ghan Shyam Singh Shekhawat (No. 2877886W now JC-469456X), 21 Jan 2004

Hav Gopal Singh Shekhawat (No. 2873968F now JC-469457A), 01 Feb 2004

Hav Ram Niwas (No. 2878921A now JC-469458H), 01 Feb 2004

Hav Rishi Pal (No. 2877369Y now JC-469459L), 01 Mar 2004

Hav Bhim Singh (No. 2876103A now JC-469460A), 01 Mar 2004

Hav Satyaveer Singh Yadav (No. 2879376N now JC-469461H), 21 Mar 2004/01 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hazari Singh (No. 2876341M now JC-469462L), 01 Mar 2004

Hav Subedar Singh Chauhan (No. 2877960M now JC-469463N), 01 Mar 2004

Hav Ranjit Singh Jat (No. 2876678P now JC-469464W), 08 Mar 2004

Hav Prahlad Singh, SM (No. 2876250H now JC-469465Y), 28 Mar 2004

Hav Lakshman Singh Rathore (No. 2879624Y now JC-469466F), 01 Apr 2004

Hav Karan Singh (No. 2878778Y now JC-469467K), 01 Apr 2004

3 GR

To be Subedar

Nb Sub Deb Bahadur Thapa (JC-607338L), 16 Nov 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-607339N), 16 Nov 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-607382P), 19 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Shaman Singh Rana (JC-607340H), 07 Dec 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub Jaman Singh Thapa (JC-607352X), 25 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Ganga Bahadur Thapa (JC-607373N), 01 Dec 2003

Nb Sub Lil Bahadur Thapa (JC-607403A), 25 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Jun Bahadur Magar (JC-607374W), 01 Jan 2004

Nb Sub Daulat Ram Thapa (JC-607380K), 25 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Tika Ram Thapa (JC-607400M), 20 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Hum Bahadur Magar (JC-607365P), 04 Mar 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Santa Kumar Thapa (JC-607286A), 01 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Prem Bahadur Gurung (JC-607370A), 01 Feb 2004

Nb Sub Khum Bahadur Gurung (JC-607381M), 01 Feb 2004

Nb Sub Guman Singh Thapa (JC-607390N), 10 Apr 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Kishna Bahadur Thapa (JC-607407W), 01 Apr 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Tara Singh Tamang (JC-607411Y), 29 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Bhupendra Singh Thapa (JC-607408Y), 01 Mar 2004

To be Subedar Major

Sub Pratap Chandra Thapa (JC-607143A), 01 Jan 2004

Sub Prithi Bahadur Thapa (JC-607108X), 01 Jan 2004

Sub Roop Singh Gurung (JC-607191A), 01 Feb 2004

Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-607139X), 20 Feb 2004/01 Feb 2004*

To be Subedar

Nb Sub Purna Bahadur Gurung (JC-607412F), 01 Apr 2004

Nb Sub Khum Bahadur Thapa (JC-607393F), 01 Apr 2004

Nb Sub (Clk) Jasbir Singh Sandhu (JC-607237X), 01 Feb 2004

Nb Sub (Clk) Tomy Mathew (JC-607225H), 01 Apr 2004

*(Granted notional seniority).

9 GR

To be Subedar

Nb Sub (Clk) Sunil Kumar (JC-629410W), 22 Mar 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub Tak Bahadur Shahi (JC-629513P), 08 Mar 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Min Bahadur Chhetri (JC-629470L), 16 Feb 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Yam Bahadur Khatri (JC-629469W), 10 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Sobit Bahadur Khadaka (JC-629468N), 01 Dec 2003

Nb Sub Laxman Chhetri (JC-629460F), 24 Dec 2003/01 Dec 2003*

*(Granted notional seniority).

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 5345744W now JC-612532K), 01 Nov 2003

Hav Damar Bahadur Thapa (No. 5346244A now JC-612533M), 27 Dec 2003@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Dec 2003).

Hav Padam Bahadur Pun (No. 5345501A now JC-612534P), 11 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5344435W now JC-612535X), 15 Jan 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Shankar Thapa (No. 5345756A now JC-612536A), 11 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Kripa Ram Gurung (No. 5345510F now JC-612537H), 11 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Dil Bahadur Rana (No. 5344944P now JC-612538L), 17 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Dev Bahadur Gurung (No. 5344996L now JC-612539N), 17 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Mingma Tenzee Sherpa (No. 5345082N now JC-612540H), 17 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Tula Ram Gurung (No. 5345495X now JC-612541L), 11 Mar 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Budhiman Gurung (No. 5345496A now JC-612542N), 12 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Uttar Singh Gurung (No. 5344966N now JC-612543W), 01 Feb 2004

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5345146N now JC-612544Y), 17 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Feb 2004).

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5345145L now JC-612545F), 13 Mar 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Feb 2004).

Hav Man Bahadur Gurung (No. 5345618Y now JC-612546K), 07 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Feb 2004).

Hav Jit Bahadur Gurung (No. 5344967W now JC-612547M), 29 Jan 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Tarka Bahadur Rana (No. 5345060P now JC-612548P), 29 Jan 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Jan 2004).

Hav Ajay Gurung (No. 5345138P now JC-612549X), 06 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Mar 2004).

Hav Ganesh Bahadur Bura (No. 5344766X now JC-612550M), 01 Mar 2004

Hav Ash Bahadur Gurung (No. 5345135P now JC-612551P), 01 Mar 2004

Hav Dil Bahadur Pun, SM (No. 5344919W now JC-612552X), 01 Mar 2004

Hav Kul Bahadur Gurung (No. 5344969F now JC-612553A), 01 Mar 2004

Hav Pirth Bahadur Pun (No. 5344978H now JC-612554H), 01 Mar 2004

Hav Narendra Kumar (No. 5345375Y now JC-612555L), 06 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Apr 2004).

Hav Prem Bahadur Rana (No. 5345589P now JC-612556N), 01 Apr 2004

Hav Nir Bahadur Chhetri (No. 5345421H now JC-612557W), 13 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Apr 2004).

Hav Lil Bahadur Gurung (No. 5345600H now JC-612558Y), 05 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & alices wef 01 Apr 2004).

9 GR

To be Subedar

Nb Sub Thaman Bahadur Khadka (JC-629440N), 01 Jan 2004

- Nb Sub Yudh Vir (JC-629439Y), 01 Jan 2004
- Nb Sub Tanku Bom Malla (JC-629497H), 15 Mar 2004/
01 Jan 2004*
- Nb Sub Ram Bahadur Chhetri (JC-629505W), 21 Feb
2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Thakur Prasad Paudiyal (JC-629378M), 01 Jan
2004
- Nb Sub Kuldeep Kumar (JC-629379P), 01 Feb 2004
- Nb Sub Sher Bahadur Chhetri (JC-629372L), 26 Dec
2003/01 Dec 2003*
- Nb Sub Man Bahadur Chhetri (JC-629519W), 04 Mar
2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Kharka Bahadur Thapa (JC-629517L), 23 Apr
2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Gambar Bahadur Mall (JC-629523Y), 15 Mar
2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Janak Bahadur Thapa (JC-629471N), 01 Jan
2004
- Nb Sub Mohan Kumar Chhetri (JC-629473Y), 01 Jan
2004
- Nb Sub (Cik) Arjun Bahadur KC (JC-629411Y), 01 Apr
2004
- Nb Sub Chitra Bahadur Khattri (JC-629493M), 10 Mar
2004/01 Sep 2003*
- Nb Sub Purna Prakash Thapa (JC-629355L), 22 Nov
2003/01 Oct 2003*
- Nb Sub Kul Bahadur Gharti Chhetri (JC-629437N), 14
Nov 2003/01 Oct 2003*
- Nb Sub Tanka Bahadur Chhetri (JC-629446P), 13 Nov
2003/01 Oct 2003*
- Nb Sub Nar Bahadur Shahi (JC-629455W), 01 Oct 2003
- Nb Sub Prem Bahadur Chand (JC-629503L), 08 Mar
2004/01 Oct 2003*
- Nb Sub Tika Bahadur Chhetri (JC-629506Y), 04 Mar
2004/01 Oct 2003*
- Nb Sub Indra Bahadur Bhandari (JC-629515A), 04 Mar
2004/01 Oct 2003*
- Nb Sub Rabinder Prasad Kaur (JC-629438W), 20 Dec
2003/01 Nov 2003*
- Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-629453L), 17 Jan 2004/
01 Nov 2003*
- Nb Sub Bhim Bahadur Kunwar (JC-629414X), 01 Nov
2003
- Nb Sub Tara Bahadur Khatri (JC-629540Y), 05 Mar
2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Ram Kumar Chhetri (JC-629526M), 05 Mar
2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Krishna Bahadur Adhikari (JC-629525K), 05
Mar 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Tek Bahadur Thapa Chhetri (JC-629424W), 01
Feb 2004
- Nb Sub Hom Bahadur Chhetri (JC-629524F), 01 Feb
2004
- Nb Sub Keshab Datt Bhatt (JC-629441W), 01 Mar 2004
- Nb Sub Netra Ram Pandey (JC-629478X), 15 Mar 2004/
01 Mar 2004*
- Nb Sub Rem Bahadur Chhetri (JC-629531X), 01 Mar
2004
- Nb Sub Dadi Narayan Chhetri (JC-629498L), 12 Mar
2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Sanjiwan Mal (JC-629429P), 04 Mar 2004/01
Mar 2004*
- Nb Sub Prem Bahadur Chhetri (JC-629449H), 04 Mar
2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Debendra Prasad Chhetri (JC-629541F), 01 Mar
2004
- Nb Sub Govind Bahadur Chhetry (JC-629538F), 01 Apr
2004
- Nb Sub Kalyan Bahadur Chhetry (JC-629442Y), 01 Apr
2004
- Nb Sub Hem Bahadur Chhetry (JC-629499N), 01 Apr
2004
- Nb Sub Amrit Bahadur Adhikari (JC-629500X), 01 Apr
2004/01 Apr 2004*
- To be Sub Maj
- Sub Buddhi Bahadur Chhetri (JC-629149F) 01 Dec 2003
- Sub Ran Bahadur Shahi (JC-629209L) 01 Dec 2003
- Sub Shiv Bahadur Chhetri (JC-629224A), 01 Jan 2004
- Sub Dharma Raj Baniya (JC-629183F) 01 Jan 2004
- Sub Yudha Bahadur Bhandari (JC-629169P) 01 Jan 2004
- Sub Dal Bahadur Thapa (JC-629186P) 01 Apr 2004
- Sub (Cik) Bir Bahadur Thakuri (JC-629150W) 15 Apr
2004/01 Apr 2004*
- *(Granted notional seniority).
- 11 GR
- To be Sub
- Nb Sub Bhim Bahadur Limbu (JC-634416F), 23 Apr
2004*
- *(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan
2004).

Nb Sub Kumar Jimba (JC-634358N), 05 Apr 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2004).

Nb Sub Tilak Bahadur Rai, VrC (JC-634304F), 06 Apr 2004#

#(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2004).

Nb Sub Jit Bahadur Chhetri (JC-634296N), 05 Apr 2004\$

\$(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2004).

Nb Sub Kumar Rai (JC-634342X), 01 Apr 2004

Nb Sub Iswar Kumar Rai (JC-634357A), 01 Apr 2004

To be Nb Sub

Hav Taka Bir Limbu (9415900H now JC-634535X), 28 Feb 2004@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2004

Hav Bhim Bahadur Limbu (9416820X now JC-634536A), 05 Mar 2004#

#(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Feb 2004

Hav Krishna Bahadur Rai (9415694K now JC-634537H), 08 Mar 2004\$

\$(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2004

Hav Ganesh Man Limbu (9416882X now JC-634538L), 01 Apr 2004

Hav Tek Bahadur Rai (9417086F now JC-634539N), 01 Apr 2004

Hav Bikaram Pachabhaya (9417096L now JC-634540H), 01 Apr 2004

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Bir Singh (JC-488771H), 01 Jun 2002

Nb Sub Jugminder Singh (JC-488780K), 01 Jun 2002

Nb Sub Gian Chand (JC-488781M), 12 Aug 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dharambir Singh (JC-488761Y), 1 Jun 2002

Nb Sub Kapoor Singh (JC-488792Y), 11 Jul 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Brij Pal Singh (JC-488823N), 1 Jun 2002

Nb Sub Chandni Ram (JC-488827K), 1 Jun 2002

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-488852H), 1 Jun 2002

Nb Sub Gordhan Ram (JC-488815P), 22 Jun 2002

Nb Sub Dilbag Singh (JC-488764M), 23 Jun 2002

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-488772L), 1 Jul 2002

Nb Sub Ran Singh (JC-488782P), 1 Jul 2002

Nb Sub Ram Kala Dhul (JC-488939K), 24 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ajmer Singh (JC-488816X), 01 Jul 2002

Nb Sub Joginder Singh (JC-488828M), 29 Oct 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Rishipal Singh (JC-488735X), 15 Jul 2002

Nb Sub Mahabir Singh (JC-488665K), 20 Jul 2002

Nb Sub Lachhi Singh (JC-488679K), 20 Jul 2002

Nb Sub Mohinder Singh (JC-488868N), 29 Jul 2002

Nb Sub Ranbir Singh (JC-488494H), 16 Sep 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Harphool Singh (JC-488698P), 23 Jan 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Mahabir Singh (JC-488765P), 21 Sep 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Patap Singh (JC-488796P), 01 Aug 2002

Nb Sub Bhim Singh (JC-488811Y), 01 Aug 2002

Nb Sub Ranvser Singh (JC-488742N), 19 Aug 2002

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ishwar Singh (JC-488812F), 10 Oct 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Gajendra Pal Singh (JC-488813K), 01 Aug 2002

Nb Sub Baljit Singh Sangwan (JC-488757W), 01 Aug 2002

Nb Sub Dalpat Singh (JC-488758Y), 20 Aug 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shiv Lal (JC-488847X), 01 Aug 2002

Nb Sub Ramphal Singh Dhalan (JC-488848A), 01 Aug 2002

Nb Sub Albel Singh (JC-488829P), 01 Aug 2002

Nb Sub Rohtash (JC-488876M), 14 Aug 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sis Ram (JC-488888F), 01 Aug 2002

Nb Sub Suresh Singh (JC-488635M), 01 Sep 2002

Nb Sub Vidyadhar Singh (JC-488699X), 20 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2002 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Krishan Pal (JC-488797X), 01 Sep 2002

Nb Sub Samer Singh Narwal (JC-488826F), 01 Sep 2002

Nb Sub Randhir Singh (JC-488874F), 01 Sep 2002

Nb Sub Ram Prashad Dhakarwal (JC-488941F), 01 Sep 2002

Nb Sub Randhir Singh (JC-488908K), 04 Sep 2002

Nb Sub Lachi Ram Jat (JC-488909M), 05 Sep 2002

Nb Sub Harpal Singh (JC-488920L), 05 Sep 2002

Nb Sub Shri Chand Jakhar (JC-488822L), 07 Sep 2002

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Ramotar (JC-488585M), 01 May 2003

Nb Sub Clk Sardar Singh (JC-488586P), 01 May 2003

Nb Sub Clk Sumer Singh (JC-488587X), 01 Jul 2003

Nb Sub Clk Devender Kumar Sharma (JC-488588A), 01 Jul 2003

Nb Sub Clk Mahesh Kumar (JC-488589H), 03 Sep 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Clk Ramesh Chand Yadav (JC-488598K), 01 Sep 2003

Nb Sub Clk Jagdish Ram Sharma (JC-488601Y), 01 Sep 2003

Nb Sub Clk Satyavir Singh (JC-488602F), 01 Sep 2003

Nb Sub Clk Dalbir Singh (JC-488646Y), 01 Dec 2003

Nb Sub Clk Harvir Singh Duhoon (JC-488683M), 21 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 22 Dec 2003 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Clk Dhup Singh Sheoran (JC-488685X), 01 Feb 2004

Nb Sub Clk Gyarsi Lal (JC-488695F), 01 Feb 2004

To be Nb Sub

Hav Bhanwara Ram (No. 3175210Y now JC-489456Y), 31 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 18 May 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Banwari Lal Jat (No. 3177848K now JC-489457F), 12 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 Dec 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Umed Singh (No. 3173621Y now JC-489458K), 03 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Harendra Singh (No. 3173816K now JC-489459M), 01 Feb 2004*

Hav Devinder Singh (No. 3174007W now JC-489460F), 01 Mar 2004*

Hav Manga Ram (No. 3180063L now JC-489461K), 05 Mar 2004

Hav Hawa Singh Bhooria (No. 3179916L now JC-489464X), 20 Sep 2003

Hav Suresh Kumar (No. 3180194W now JC-489465A), 01 Nov 2003

Hav Devi Singh (No. 3175404F now JC-489466H), 01 Apr 2004

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kishan Singh (No. 4175099W now JC-539435F), 12 Jan 2004/01 Oct 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Nandan Singh (No. 4175403P now JC-539436K), 12 Jan 2004/01 Oct 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay & allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4174295K now JC-539441P), 15 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Manohar Singh Shahi (No. 4177670P now JC-539442X), 15 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Chander (No. 4174349A now JC-539452F), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 4174330F now JC-539453K), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Ballabh (No. 4175002A now JC-539454M), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 4175010Y now JC-539455P), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bishan Singh (No. 4175022N now JC-539456K), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Narayan Datt (No. 4175013M now JC-539457A), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nandan Singh (No. 4175121W now JC-539458H), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hukam Singh (No. 4175846W now JC-539459L), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hira Singh (No. 4177045N now JC-539460A), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kharak Singh (No. 4175700H now JC-539461H), 26 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hariish Chandra Singh (No. 4177777K now JC-539424P), 20 Dec 2003/13 Oct 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kanwar Singh (No. 4175223M now JC-539443A), 15 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jal Karan Singh (No. 4175930W now JC-539444H), 15 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Daleep Singh Yadava (No. 4179979K now JC-539445L), 15 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sube Singh (No. 4175945Y now JC-539466F), 08 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jogender Singh, VrC (No. 4180458H now JC-539467K), 08 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Singh (No. 4179742M now JC-539462L), 28 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

CHM Anand Singh Mehra (No. 4175737K now JC-539464W), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chand (No. 4175744A now JC-539438P), 14 Jan 2004/10 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

CQMh Kundan Singh (No. 4185413M now JC-539440M), 14 Jan 2004/10 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Jagdish Singh Negi (No. 4178041K now JC-539439X), 14 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Chander (No. 4172682A now JC-539431L), 02 Jan 2004/01 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Amir Singh (No. 4173562N now JC-539432N), 04 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

CQMh Ram Kumar, SM (No. 4173600Y now JC-539433W), 04 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mahaveer Prasad Yadava (No. 4174261W now JC-539434Y), 04 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dalip Singh (No. 4174933X now JC-539463N), 01 Feb 2004

Hav Ashok Kumar Singh (No. 4173941K now JC-539425X), 27 Dec 2003/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

CHM Hukam Singh (No. 4173636X now JC-539446N), 18 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Devraj Singh (No. 4178117Y now JC-539469P), 10 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Radha Mohan Singh (No. 4175630P now JC-539423M), 07 Dec 2003/01 Nov 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 4174271A now JC-539426A), 01 Jan 2004

Hav Pratap Singh (No. 4174311W now JC-539427H), 01 Jan 2004

Hav Madan Singh (No. 4174280F now JC-539447W), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shyam Singh (No. 4174086M now JC-539470K), 11 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Rajendar Kumar Singh (No. 4172868K now JC-539449F), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav A'jai Kumar Yadav (No. 4180854Y now JC-539450W), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lajja Ram (No. 4175894W now JC-539448Y), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Autar (No. 4175278W now JC-539451Y), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Ram Singh Gariya (No. 4176826P now JC-539437M), 12 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Braham Datt, SM (No. 4176982Y now JC-539428L), 01 Jan 2004

Hav Rajindra Giri (No. 4175490F now JC-539468M), 09 Feb 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pratap Singh (No. 4175755M now JC-539471M), 12 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

CQMH Ram Niwas (No. 4180407P now JC-539465Y), 06 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

CHM Raghuvir Singh (No. 4174249P now JC-539430H), 01 Jan 2004

CHM Babu Lal (No. 4172406X now JC-539429N), 01 Jan 2004.

THE NAGA REGIMENT

CQMH Kharak Singh (No. 4174378P now JC-590139Y), 31 Dec 2003/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kamal Bahadur (No. 14701024Y now JC-590140N), 16 Jan 2004/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Surender Kumar Thapa (No. 14701711P now JC-590141W), 23 Jan 2004/01 Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Amar Nath (JC-578037W), JAK RIF, 01 Oct 2003

Sub Narinder Singh (JC-578253K), JAK RIF, 01 Nov 2003

Sub Silander Singh (JC-218366K), JAK RIF, 01 Feb 2003
To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Jia Lal (JC-579166H), JAK RIF, 01 Sep 2002

Nb Sub Om Parkash (JC-579178X), JAK RIF, 01 Sep 2002

Nb Sub Bir Bahadur Malla (JC-578986H), JAK RIF, 01 Nov 2002

Nb Sub Jagdish Singh (JC-579187Y), JAK RIF, 01 Nov 2002

Nb Sub Vijay Kumar Gathania (JC-579150X), JAK RIF, 27 Dec 2002

Nb Sub Dewan Singh (JC-579205W), JAK RIF, 01 Jan 2003

Nb Sub Ranvir Singh Kharwal (JC-579136L), JAK RIF, 01 Feb 2003

Nb Sub Romesh Kumar (JC-579155W), JAK RIF, 01 Jun 2003

Nb Sub Santosh Kumar (JC-579043F), JAK RIF, 01 Jul 2003

Nb Sub Subash Chander (JC-579272F), JAK RIF, 01 Jul 2003

Nb Sub Ravi Dutt (JC-579114M), JAK RIF, 01 Aug 2003

Nb Sub Ranjit Singh (JC-579191F), JAK RIF, 01 Aug 2003

Nb Sub Ranjit Singh (JC-579210F), JAK RIF, 01 Aug 2003

Nb Sub Chaman Lal Khanginae (JC-579227P), JAK RIF, 01 Aug 2003

Nb Sub Partap Singh (JC-579132P), JAK RIF, 01 Sep 2003

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-579142Y), JAK RIF, 01 Sep 2003

Nb Sub Saroop Chand (JC-579158K), JAK RIF, 01 Sep 2003

Nb Sub Sodhi Ram (JC-579159M), JAK RIF, 01 Sep 2003

Nb Sub Ganesh Dass (JC-579228X), JAK RIF, 01 Oct 2003

Nb Sub Yash Paul (JC-579275P), JAK RIF, 01 Oct 2003

Nb Sub Gani Mohd (JC-579118H), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub Kartar Singh Thakur (JC-579145M), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub Swaran Singh (JC-579202H), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub Mathra Dass Raina (JC-579260M), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub Nand Lal (JC-579261P), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub Chain Singh (JC-579281H), JAK RIF, 01 Dec 2003
To be Substantive Sub Maj/Clk (GD)

Sub/Clk Raj Kumar (JC-578256X), JAK RIF, 01 Jan 2004
To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub/Clk Subhash Singh (JC-578793H), JAK RIF, 01 Oct 2003

Nb Sub/Clk Des Raj (JC-578794L), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub/Clk Mohan Lal (JC-578795N), JAK RIF, 01 Nov 2003

Nb Sub/Clk Saroj Kumar Rattan (JC-578796W), JAK RIF, 01 Dec 2003

Nb Sub/Clk Mohinder Singh (JC-578797Y), JAK RIF, 01 Jan 2004

Nb Sub/Clk Tilk Raj Sharma (JC-578818K), JAK RIF, 01 Jan 2004

Nb Sub/Clk Satish Kumar (JC-578834F), JAK RIF, 01 Jan 2004

Nb Sub/Clk Madhu Suden (JC-578848F), JAK RIF, 01 Jan 2004

Nb Sub/Clk Kesar Singh Katoch (JC-578849K), JAK RIF, 01 Jan 2004

Nb Sub/Clk Harnam Singh (JC-578907H), JAK RIF, 01 Feb 2004
To be Nb Sub (GD)

Hav Ashok Kumar (13743509K now JC-579648X), 25 Nov 2003.*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Jagdeep Singh (13743821P now JC-579649A), 06 Nov 2003.*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and allowances wef 01 Nov 2003)

Hav Joginder Singh (13742675N now JC-579651X), 01 Jan 2004.

Hav Sada Nand (13742855W now JC-579652A), 01 Jan 2004.

Hav Des Raj (13744581P now JC-579653H), 02 Jan 2004.
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Tek Singh (13749760X now JC-579654L), 01 Jan 2004.

Hav Darshan Kumar (13744590W now JC-579655N), 01 Jan 2004.

Hav Charan Singh (13744751N now JC-579656W), 01 Jan 2004.

Hav Ranjit Singh (13746069P now JC-579657Y), 01 Jan 2004.

Hav Rattan Bahadur Thapa (13743967H now JC-579658F), 01 Jan 2004.

Hav Manjit Singh (13755443N now JC-579659K), 01 Jan 2004.

Hav Kishan Bahadur Thapa (13745065M now JC-579660Y), 01 Jan 2004.

Hav Raghubir Singh (13743417A now JC-579661F), 02 Jan 2004.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Mohan Lal (13744703N now JC-579662K), 01 Jan 2004.

Hav Raghubir Singh (13747615H now JC-579663M), 01 Jan 2004.

Hav Romesh Lal (13744568L now JC-579664P), 01 Jan 2004

Hav Vishram Singh (13744607Y now JC-579665X), 01 Jan 2004.

Hav Parkash Chand (13744833W now JC-579666A), 01 Jan 2004.

Hav Virender Kumar Sharma (13744942H now JC-579667H), 01 Jan 2004.

Hav Balak Raj (13744977Y now JC-579668L), 01 Jan 2004.

Hav Daljit Singh (13744979K now JC-579669N), 01 Jan 2004.

To be Nb Sub/Clk (GD)

Hav/Clk Jai Pal (13749567M now JC-579650P), 01 Jan 2004.

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Sangram Singh (3986927F now JC-519838A), 26 Nov 2003.

Hav Ashok Kumar (3980806K now JC-519839H), 14 Jan 2004.

Hav Khazan Chand (3980985P now JC-519840X), 01 Feb 2004.

Hav Narinder Singh (3981257F now JC-519841A), 20 Feb 2004.

Hav Rangil Singh (3981147M now JC-519842H), 22 Feb 2004.

Hav Amrit Lal (3981495N now JC-519843H), 01 Mar 2004.

Hav Bira Ram (3981983W now JC-519844N), 07 Mar 2004.

Hav Ramesh Chand (3983223M now JC-519845W), 13 Mar 2004.

Hav Pritam Chand (3979375W now JC-519846Y), 04 May 2004+.

+(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar (3980441A now JC-519847F), 01 Apr 2004.

Hav Raj Bahadur (3986787A now JC-519848K), 08 Apr 2004.

Hav Kamaljit Singh (3982997H now JC-519849M), 01 May 2004.

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Patil Balaso Baburao (2779197Y now JC-459285H), 13 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with affect from 25 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Appaji Hebbalkar (No. 2776227A now JC-459286L), 01 Feb 2004.

Hav Uttam Shinde (No. 2785500L now JC-459287N), 15 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kadam Kiran Aba (2779235K now JC-459293F), 05 Apr 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay allowances.)

Hav Shashikant Ramchandra Mhopadi (2778246K now JC-459294K), 30 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sonmale Harischandra Baiawant (2779630X now JC-459295M), 01 Mar 2004.

Hav Sambhaji Alori (2783499H now JC-459296P), 18 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Shinde Kundalik Sidram (2781883L now JC-459297X), 29 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Kale Babasaheb Bajirao (2783380Y now JC-459298A), 20 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kumbhar Arun Ganapati (2784334W now JC-459299H), 19 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gawas Santosh Krishna (2784495Y now JC-459300M), 28 Mar 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dattajirao Akaram Shinde (2777688W now JC-459301P), 01 Apr 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2004 without effect on pay).

Hav Ani Ullah (2781317L now JC-459302X), 01 Apr 2004.

Hav Shinde Dattatrya Govindrao (2781770H now JC-459303A), 01 Apr 2004.

Hav Bhosale Sanjay Kumar Pralhad (2782790H now JC-459304H), 01 Apr 2004.

Hav Uttakar Maruti Namu (2778938Y now JC-459305L), 01 Apr 2004.

Hav Shinde Sanjay Sakharan (2784740W now JC-459306N), 01 Apr 2004.

Hav Desai Pravin Jayashingrao (2783241P now JC-459307), 01 Apr 2004.

Hav Khot Machhindra Sidram (2785364A now JC-459308Y), 01 Apr 2004.

Hav KA Subbaiah (2782078N now JC-459309F), 01 Apr 2004.

Hav Mohite Sanjay Kumar Balasaheb (2782112H now JC-459310W), 01 Apr 2004.

Hav Khairnar Ashok Shankar (2782452L now JC-459311Y), 01 Apr 2004.

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Jagdale Dilip Kumar Shankarrao (2780210K now JC-459288W), 19 Feb 2004*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Balakrushna Das (2780542N now JC-459289Y), 15 Feb 2004.

Hav/Clk Jambe Gorakhnath Mahadeo (2780551P now JC-459290N), 01 Mar 2004.

Hav/Clk Sanjeev Mohan K (2780709M now JC-459291W), 01 Mar 2004.

Hav/Clk Gajraj Singh (2780979F now JC-459292Y), 01 Mar 2004.

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Dhian Singh (JC-211122N), 04 Feb 2004*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedar

Nb Sub Angrej Singh (JC-498990X), 06 Jan 2004%

%(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bahadur Singh (JC-498972P), 19 Jan 2004@

@(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-498816L), 01 Jan 2004&

&(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dalwara Singh (JC-498864L), 01 Jan 2004.

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-498902W), 01 Feb 2004.

To be Subedar Major

Sub Balwinder Singh (JC-216563N), 01 Mar 2004

To be Subedar

Nb Sub Ajaib Singh (JC-498832H), 07 Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 30 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498818W), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ravinder Singh (JC-498983F), 01 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kulbir Singh (JC-499004K), 25 Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satpal Singh (JC-498897W), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 23 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baldev Singh (JC-498799W), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukha Singh (JC-498917Y), 01 Mar 2004

Nb Sub Palwinder Singh (JC-498926A), 01 Mar 2004

Nb Sub Sukhcharan Singh (JC-498950W), 01 Mar 2004

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-498933W), 01 Mar 2004

Nb Sub Nirmal Singh (JC-498949F), 01 Mar 2004

Nb Sub Jarnail Singh (JC-498998K), 05 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Biker Singh (JC-499060H), 04 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-499063W), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499027X), 01 Mar 2004

Nb Sub Gurcharanjit Singh (JC-499050Y), 31 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mewa Singh (JC-498850L), 17 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Harcharan Singh (JC-498899F), 01 Apr 2004

Nb Sub Avtar Singh (JC-499000N), 01 Apr 2004

Nb Sub Baldev Singh (JC-499022M), 01 Apr 2004

Nb Sub Pirthi Singh (JC-499002Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Balkar Singh (JC-499087A), 13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk S Rajendran (JC-498723W), 06 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar Clerk wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Malla Singh (JC-498754W), 10 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar Clerk wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedars

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498900L), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balkar Singh (JC-498942X), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Karnail Singh (JC-499019M), 28 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baljit Singh (JC-498784N), 14 Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Krishan Singh (JC-498823F), 18 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Malook Singh (JC-498788K), 06 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amrik Singh (JC-499006P), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dildar Singh (JC-499029W), 28 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Parmod Singh (JC-499074H), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sarwan Singh (JC-498789M), 22 Mar 2004

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-498879N), 21 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shabeg Singh (JC-498830X), 01 Apr 2004

Nb Sub Jasbir Singh (JC-498873M), 14 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaspal Singh (JC-498808M), 03 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498977N), 19 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kuldip Singh (JC-498973X), 27 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499016Y), 02 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499007X), 04 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amarjit Singh (JC-499069X), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Avtar Singh (JC-498964W), 08 Oct 2003

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Karam Singh (JC-498910H), 30 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Makhan Singh (JC-499064Y), 05 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhchain Singh (JC-498989H), 06 May 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Joginder Singh (JC-499012H), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-499013L), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lochan Singh (JC-499037P), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk Sukhdev Singh (JC-498762H), 29 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Paritpal Singh (3384804Y now JC-499371W), 28 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhpal Singh (3386330F now JC-499372Y), 21 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sewak Singh (3386451H now JC-499373F), 07 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurmail Singh (3386890N now JC-499374K), 24 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Bachittar Singh (3382546L now JC-499375M), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mehar Singh (3386501H now JC-499376P), 28 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harjit Singh (3387012K now JC-499377X), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Fauza Singh (3386308W now JC-499378A), 20 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Naranjan Singh (3388685L now JC-499379H), 23 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhbir Singh (3387045P now JC-499380X), 20 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harnek Singh (3387035L now JC-499381A), 19 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hira Singh (3387287X now JC-499382H), 19 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kamaljit Singh (3387423H now JC-499383L), 26 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Dev Singh (3387006W now JC-499384N), 22 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Jabar Singh (3383936A now JC-499385W), 01 Apr 2004

Hav Clk Mithlesh Prasad (3383596H now JC-499386Y),
15 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Harbhajan Singh (3381530N now JC-499387F),
26 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Pramod Kumar Tiwari (3381757F now JC-
499388K), 29 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef
01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Kashmir Singh (3391692M now JC-499321L), 28 Jan
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 19
Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Hazura Singh (3381084X now JC-499322N), 18 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 05
Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rishpai Singh (3378744Y now JC-499323W), 18 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13
Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Binder Singh (3384617A now JC-499324Y), 28 Dec
2003

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13
Oct 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswinder Singh (3384773K now JC-499325F), 13
Jan 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sinder Singh (3385454K now JC-499326K), 13 Jan
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Palwinder Singh (3385818L now JC-499327M), 13
Jan 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kulwinder Singh (3384865W now JC-499328P), 20
Jan 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Rattan Singh (3385242Y now JC-499329X), 02 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14
Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Surinder Singh (3386818X now JC-499330M), 07
Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 19
Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurbhaj Singh (3381662F now JC-499331P), 08 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Singh (3382102F now JC-499332X), 08 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Avtar Singh (3388018X now JC-499333A), 01 Feb
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14
Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jarnail Singh (3385578Y now JC-499334H), 05 Mar
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Paramjit Singh (3385615F now JC-499335L), 05 Mar
2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Raghbir Singh (3386848P now JC-499336N), 01 Mar
2004

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Kewal Krishan (3383794N now JC-499337W),
24 Nov 2003

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Oct 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Daljit Singh (3385337Y now JC-499338Y), 14 Mar
2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Jaspal Singh (3387509F now JC-499339F), 25 Feb
2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Darshan Singh (3381290F now JC-499340W), 05 Mar
2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Puran Singh (3383606F now JC-499341Y), 16 Mar 2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wof 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Didar Singh (3382987F now JC-499342F), 05 Mar 2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wof 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sakattar Singh (3385000W now JC-499343K), 16 Mar 2004.

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wof 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Pratap Singh (JC-220103K), 09 Jan 2004.

Sub Devi Chand, VSM (JC-220109L), 01 Feb 2004.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Om Prakash Yadav (JC-412161H), 02 Nov 2003.

Sub (Clk) Balwinder Singh (JC-412162L), 01 Apr 2004.

To be Sub

Nb Sub Jagat Ram (JC-412525K), 13 May 2003.

Nb Sub Govind Singh (JC-412486N), 29 Aug 2003.

Nb Sub Satvinder Singh (JC-412559X), 29 Aug 2003.

Nb Sub Jaipal (JC-412554Y), 29 Aug 2003.

Nb Sub Uttam Janba Tikka (JC-412555F), 29 Aug 2003.

Nb Sub Ram Niwas (JC-412498L), 01 Sep 2003.

Nb Sub Sanjay patil (JC-412580A), 06 Oct 2003.

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-412581H), 06 Oct 2003.

Nb Sub Lal Singh (JC-412442Y), 01 Oct 2003.

Nb Sub Kumar Desai Satyawan Bholanath (JC-412626A), 01 Nov 2003.

Nb Sub Onkar Singh (JC-412542K), 01 Nov 2003.

Nb Sub Kedar Singh (JC-412545A), 01 Nov 2003.

Nb Sub Gurmali Singh (JC-412451A), 01 Dec 2003.

Nb Sub Chanan Singh (JC-412506Y), 01 Dec 2003.

Nb Sub Rajendra Singh (JC-412573K), 01 Dec 2003.

Nb Sub Daulat Singh (JC-412574M), 01 Dec 2003.

Nb Sub Om Prakash (JC-412546A), 01 Dec 2003.

Nb Sub Maiwa Ram Gujar (JC-412547A), 01 Dec 2003.

Nb Sub Dasrath Singh (JC-412544P), 01 Dec 2003.

Nb Sub Daljit Kumar (JC-412361Y), 01 Dec 2003.

Nb Sub Suresh Singh Ahlawat (JC-412363K), 01 Dec 2003.

Nb Sub Kailash Chand (JC-412492K), 01 Jan 2004.

Nb Sub Gyan Singh, SM (JC-412392Y), 05 Jan 2004.

Nb Sub Joginder Singh (JC-412393F), 05 Jan 2004.

Nb Sub Babu Lal (JC-412568Y), 01 Mar 2004.

Nb Sub Shiv Karan Singh (JC-412584W), 01 May 2004.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Narendra pratap Singh (JC-412401P), 01 Apr 2004.

SPECIAL LIST

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Majors

Sub Jaswant Singh (JC-216467Y), 01 Sep 2003.

Sub Hardyal Singh (JC-216469K), 01 Nov 2003.

Sub Vijay Kumar (JC-428174 K), 15 Nov 2003.

Sub Gian Singh (JC-428132X), 01 Dec 2003.

Sub Manohar Lal (JC-428264L), 01 Jan 2004.

Sub Rattan Chand (JC-428292X), 01 Jan 2004.

Sub Bagicha Singh (JC-220882X), 01 Feb 2004.

Sub Hans Raj (JC-428179H), 01 Feb 2004.

To be Subedars

Nb Sub Surjit Singh (JC-429090H), 06 Jul 2003.

Nb Sub Sowaran Singh (JC-428973A), 01 Sep 2003.

Nb Sub Jeet Singh (JC-429056H), 01 Sep 2003.

Nb Sub Kamal Singh (JC-429096K), 01 Sep 2003.

Nb Sub Parshotam Singh (JC-429133M), 01 Sep 2003.

Nb Sub Bharat Raj Kaundal (JC-429084P), 20 Oct 2003.

Nb Sub Shiv Chand (JC-429174W), 27 Nov 2003.

Nb Sub Amrik Singh (JC-429213K), 28 Nov 2003.

Nb Sub Jaswant Singh (JC-429256Y), 28 Nov 2003.

Nb Sub Daljit Singh (JC-429102M), 01 Dec 2003.

Nb Sub Balwan Singh Sumbria (JC-429182P), 01 Dec 2003.

Nb Sub Sant Ram Verma (JC-429202X), 01 Dec 2003.

Nb Sub Kewal Singh (JC-428663P), 05 Dec 2003.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-429048K), 06 Dec 2003.

Nb Sub Subhash Chand (JC-429134P), 08 Dec 2003.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-428953M), 01 Jan 2004.

Nb Sub Rup Lal (JC-429298L), 01 Jan 2004.

Nb Sub Sukhjinder Singh (JC-429335N), 01 Jan 2004.

Nb Sub Gulab Singh (JC-428837K), 18 Jan 2004.

Nb Sub Karam Chand (JC-429113Y), 23 Jan 2004.

Nb Sub Swaran Singh (JC-428746A), 01 Feb 2004.

Nb Sub Prem Lal Bhardwaj (JC-429007A), 01 Feb 2004.

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-429066M), 01 Feb 2004.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-429173N), 01 Feb 2004.

Nb Sub Rashpal Singh (JC-428976N), 01 Mar 2004.

Nb Sub Santakh Singh (JC-429033F), 01 Mar 2004.

Nb Sub Daler Singh (JC-429085Y), 01 Mar 2004.

Nb Sub Shamsher Singh (JC-429199H), 01 Mar 2004.

To be Nb Subedar Musn

Hav (Musn) Jaswant Singh (2474105Y Now JC-429522M), 21 Feb 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

To be Nb Subedars

Hav Karam Singh (2475476N Now JC-429503F), 05 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Manjit Singh (2475891P Now JC-429510X), 05 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Karnail Singh (2472972K Now JC-429511A), 26 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Ved Singh (2475607N Now JC-429523P), 01 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Jaipaul Singh (2472566K Now JC-429504K), 10 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Gurdeep Singh (2474749Y Now JC-429513L), 05 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Abtar Singh (2475804W Now JC-429514N), 05 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Jaswinder Singh (2476807W Now JC-429505M), 20 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Baljit Singh (2476785H Now JC-429528N), 25 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 15 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Sudershan Kumar (2472653X Now JC-429506P), 31 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 20 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Rattan Chand (2470674P Now JC-429512H), 28 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 21 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Chuni Lal (2473107X Now JC-429529W), 24 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 22 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Sukhdev Sahotra (2472735A Now JC-429507X), 08 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 28 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Mukhtiar Singh (2473143H Now JC-429530L), 02 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 28 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Kamer Singh (2471037L Now JC-429508A), 11 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Pritam Singh (2477876Y Now JC-429509H), 01 Dec 2003

Hav Baljit Singh (2477334P Now JC-429515W), 16 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Jarnail Singh (2473498N Now JC-429516Y), 01 Dec 2003

Hav Nirmal Singh (2474851F Now JC-429517F), 12 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Manohar Singh (2472938K Now JC-429524X), 11 Feb 2004

(Granted ante dated seniority wef 05 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Raj Kumar (2471742K Now JC-429531N), 25 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 09 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Sushil Kumar (2475621A Now JC-429532W), 25 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 09 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Manjit Singh (2476373F Now JC-429533Y), 01 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 18 Dec 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Raja Singh (2472866L Now JC-429518K), 01 Jan 2004

Hav Mohinder Singh (2473992K Now JC-429519M), 25 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Charanjit Singh (2477945K Now JC-429520F), 16 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Darshan Singh (2477504N Now JC-429521K), 25 Jan 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Ishwar Dass (2471800H Now JC-429534F), 28 Feb 2004

(Granted ante dated seniority wef 06 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Harbhajan Singh (2479025L Now JC-429535K), 24 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 11 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Ranjit Singh Dogra (2473529H Now JC-429525A), 20 Feb 2004

(Granted ante dated seniority wef 20 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Balbir Singh (2472560H Now JC-429536N), 25 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2004 without effect on Pay and Allowances)

Hav Baldev Singh (2474519L Now JC-429537P), 01 Mar 2004

Hav Balwinder Singh (2475273K Now JC-429538X), 01 Mar 2004

Hav Ramesh Chand (2471920F Now JC-429539A), 23 Mar 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2004 without effect on Pay and Allowances)

To be Nb Subedar Religious Teachers

RRT (Pandit) Yogendra Pathak (Now JC-429269W), 30 Nov 2002

RRT (Granthi) Talwinder Singh (Now JC-429270L), 30 Nov 2002

RRT (Granthi) Gurpreet Singh (Now JC-429271N), 30 Nov 2002

RRT (Granthi) Major Singh (Now JC-429409X), 01 Nov 2003

To be Naib Subedars

Hav Tilak Raj (2471015M Now JC-429480L), 02 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 05 Apr 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Balwant Singh (2476075L Now JC-429473P), 23 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 28 Jul 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Gurdev Singh (2474820F Now JC-429495N), 26 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Nirmal Singh (2476815P Now JC-429496W), 26 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Harbhajan Singh (2473125A Now JC-429481N), 24 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Surjeet Singh (2471599H Now JC-429482W), 24 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Resham Singh (2477828Y Now JC-429483Y), 20 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Jaswant Singh (2476348H Now JC-429497Y), 26 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Om Parkash (2473219X Now JC-429474X), 05 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Prem Pal (2472784H Now JC-429475A), 25 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Besar Ram (2474490N Now JC-429484F), 22 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Om Parkash (2472373K Now JC-429476H), 18 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Tarlochan Singh (2479596K Now JC-429485K), 29 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Darshan Lal (2472476H Now JC-429486M), 07 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Amar Singh (2474344N Now JC-429498F), 29 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Dhian Singh (2470558M Now JC-429477L), 21 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Balbir Chand (2472327P Now JC-429487P), 21 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Amar Nath (2472088L Now JC-429478N), 23 Oct 2003

(Granted ante dated seniority wef 06 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Harjinder Singh (2477968P Now JC-429499K), 07 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 21 Sep 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Ayodhia Kumar Rana (2474957N Now JC-429488X), 09 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Sawrup Singh (2471482K Now JC-429489A), 01 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Pritam Singh (2471764H Now JC-429490P), 01 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Jagdish Singh (2472931A Now JC-429491X), 02 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Biri Singh (2473279M Now JC-429492A), 22 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 20 Oct 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Gurcharn Singh (2470893W Now JC-429500N), 20 Dec 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Om Parkash (2473921H Now JC-429501W), 04 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Darshan Singh (2476662W Now JC-429502Y), 25 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Dalip Singh (2478971X Now JC-429493H), 18 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Kulwinder Singh (2478814L Now JC-429494L), 15 Nov 2003

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2003 without effect on Pay and Allowances)

Hav Avtar Singh (2471031K Now JC-429479W), 01 Nov 2003

DIWAKAR
Under Secy.

No. 413 dated 16 July 2004— The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Rajesh Kumar Dogra (TA-42032), Inf. 08 Feb 2002.

Lt to Capt

Lt. Nagarajan Krishnasamy (TA-41817), ASC (TA) 28 July 2003

ML SHARMA
Under Secy.

No. 414 dated 20th July 2004—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

IC NO, NAME AND ARM

41789 Bijay Sinha, ASC

—27 Oct 2001—

(But pay & allowances wef 27 Oct 2003)

44841 NS Thapa, AOC

46433 VS Madhu, Engrs

46336 Deotale Khitish Manik, EME

—27 Oct 2002—

(But pay & allowances wef 27 Oct 2003)

45782 Kartik Kumar Rajwanshi, JAG

46395 Sandeep Kumar, JAG

—14 Apr 2002—

(But Pay & allowances wef 14 Apr 2003).

54761 Vijay Pal Singh Malik, JAG

—21 Apr 2003—

LT TO CAPT

Sl No, Name & Arm

4599 C Ravi Kumar, Engrs, ABE B/R

4600 BK Sharma, Engrs, ABE E/M

4601 K Damodaran, Engrs, IEM

4602 V Rama Rao, Engrs, ABE B/R

4606 Balkrishan, Engrs, ABE E/M

4608 P Ramesh Kumar, Engrs, ABE/BR

4609 Stanly P Valooran, Engrs, ABE B/R

4610 Siby Joseph, Engrs, ABE E/M

4611 K Selvaraj, Engrs, ABE B/R

4612 Sudershan Kumar, Engrs, ABE B/R

4615 Dinesh Kumar, Engrs, ABE B/R

4616 SB Singh, SL RO

4617 Rajangam, SL RO

4618 Lala Ram Sinwar, SL RO

4619 Mahender Singh Kahrana, Sigs, CIPH OFF

4620 Francis CJ, SL RO

4621 Ujjyal Mukhopadhyay, Sigs, TOT

4622 Harender Singh, AD Arty, TOT (AD)

4623 Mohar Singh, SL RO

4624 Sunny Joseph M, SL RO

4626 Jaipal Singh Poonia, SL RO

4627 Suresh Babu D, SL RO

4628 Prasannan V, SL RO

4629 Liladhar Joshi, SL RO

4630 Vashish Kumar, SL RO

4631 Dipak Roy, Sigs, CIPH OFF

4632 Bhuwan Chandra Joshi, SL RO

4635 CL Balraj, SL RO

4636 Birendra Kumar Singh, SL RO

4637 Gural Singh, SL RO

4639 Sajeevan Nair S, SL RO

4641 M Murali, Engrs, ASST ARC

4643 Karamvir Singh Dagur, EME, EMAE

4644 Kuldeep Chand Jaggi, SL RO

4645 Anil Dutt Sharma, EME, EMAE

4646 Prasanthan KD, EME, EMAE (SA)

4647 Bhejan Singh Verma, SL RO

4648 Balbir Singh Choudhary, SL RO

4649 R. Subash Chandra Bose, SL RO

4650 Mahavir Singh, SL RO

4651 Meharban Singh, EME, EMAE

4652 Harjule Ashok Baburoo, SL RO

4653 Ramamurthy J, SL RO

4655 Narayan Singh, EME, EMAE

4656 KP Tiwari, Engrs, ABE B/R

—24 Apr 2004—

KS VERMA
Jt. Dir
MS-8C

AIR HEADQUARTERS

No. 415 Dated 15th July 2004—The President is pleased to promote the following AD (OL) (Group 'B' Gazetted) of AFHQ/IS Organisation Service as AD Gde I (OL) Group 'B'

Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-12000, on ad-hoc basis with effect from 01 Apr. 2004 till further orders or upto 30 Sep 2004 or till availability of regular incumbents, whichever is earlier:—

Sr. No. Name

- (a) Smt. Sushila Paliwal
(b) Sh. Jagdish Chander Sethi

The promotion shall be subject to the following conditions:—

(a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.

(b) The officers shall have no claim for regular promotion/ appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of AD (OL) Gde I.

The President is pleased to promote the undermentioned Draftsman Grade I as Chief Drawing Officer, (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-10500 in AFHQ/IS Organisations w.e.f. the dates noted against each—

- (a) Sh. Rajinder Kumar - 22 Mar 2004
(b) Sh. Ved Prakash Sharma - 22 Mar 2004
(c) Sh. YL Jaisingh - 22 Mar 2004
(d) Sh. Azad Singh - 17 Mar 2004

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Admn. Officer

**ARMY BRANCH
(REGULAR ARMY)**

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt.

CORRIGENDUM

No. 416 Dated 20th July 2004—The gazette Notification No. 235 published on 27 May 2000 under heading "REGULAR ARMY" and sub-heading "SHORT SERVICE COMMISSION TO BE LT" is hereby amended as under:—

Against Personal No. 38014K (under column Name of GC)

For - Bal Bhadur Pun

Read- Bal Bahadur Pun

The Gazette Notification No 444 published on 23 Sep 2000 under heading "REGULAR ARMY" and sub-heading "SHORT SERVICE COMMISSION TO BE LT" is hereby amended as under:—

Against serial No. 7 (under column Arm/Service)

Shashank Shekhar SS 37970

For - Sigs

Read - Engrs

VIJAY SAHGAL
Lt Col
AMS 8B